



हिन्दी दैनिक



समाचार-पत्र

आमिद रेखा



वर्ष 05

अंक 103

कुशीनगर

गुरुवार 11 फरवरी, 2021

पृष्ठ 8

मूल्य 1 रुपये

मुस्लिम लड़की को निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं: हाईकोर्ट

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम लड़की बालिग न हो तो भी उसका निकाह वैध है। एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। यह जोड़ा मोहाली का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम लड़की युवा है तो उसकी शादी वैध है। मोहाली निवासी प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल की थी कि उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों से




परिवार के खिलाफ जाकर निकाह किया है। इस निकाह से दोनों के परिवार वाले नाराज हैं और उनके

जीवन की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। युवक की आयु 36 साल है और लड़की की आयु 17 साल

की है। लड़की के घरवालों ने कहा कि लड़की बालिग नहीं है ऐसे में उसे उन्हें सौंपा जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने जनवरी में निकाह किया था और तभी से उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। निकाह के बाद दोनों ने सुरक्षा के लिए मोहाली के एसएसपी से भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। एसएसपी द्वारा कदम न उठाए जाने के चलते ही याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। इस याचिका पर

हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम प्रेमी जोड़े के मामले में विवाह के लिए लड़की का बालिग होना अनिवार्य नहीं है। यदि लड़की युवा है तो उसे यह अधिकार मिलता है कि वह यह तय कर सके कि उसे अपना जीवन किसके साथ बिताना है। संविधान उसे स्वतंत्रतापूर्वक जीने और मनपसंद जीवनसाथी के चयन का अधिकार देता है। हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को आदेश दिया कि वह प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की समीक्षा करें तथा उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें।



वेलेंटाइन वीक का चौथा दिन देशभर के साथ जम्मू-कश्मीर में भी टेडी बियर के नाम रहा। युवाओं ने टेडी बियर की मासूमियत से एक-दूसरे के दिलों में दस्तक दिया। शहर की गिफ्ट गैलरी में टेडी बियर की खरीदारी करने का जामवड़ा रहा। इस दौरान केज टेडी बियर, बाकट टेडी और हार्ट टेडी युवाओं की पहली पसंद बनी।

जब तक मैं 'जिंदा' हूँ भाजपा को सत्ता में आने नहीं दूंगी: ममता बनर्जी

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मतलब है कि दंगा को प्रोत्साहित करना। ममता ने कहा कि अगर आप बंगाल में दंगा चाहते हैं तो भाजपा को वोट कीजिए। ममता ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरे पास जनता का समर्थन है और जब तक मैं जिंदा हूँ भाजपा को सत्ता में आने नहीं दूंगी। ममता ने खुद की तुलना रॉयल बंगाल टाइगर से की वहीं इससे पहले बुधवार को ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद की रैली में खुद की तुलना रॉयल बंगाल टाइगर से करते हुए कहा कि वह कमजोर नहीं हैं, जो भाजपा से डर जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहूंगी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह रहूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि गुजराती नहीं बल्कि बंगाली ही बंगाल पर शासन करेगा। भाजपा जमींदारों की पार्टी है। इनको लूट मचाने नहीं दूंगी।



प्रियंका गांधी का सहारनपुर दौरा आज, जिले में लगाई गई धारा 144


नयी दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वह मां शकंभरी देवी मंदिर में मत्था टेकेंगी। मत्था टेकने के बाद वह किसानों के महापंचायत को भी संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि महापंचायत के जरिए वह एक बार फिर से सियासी तीर चलाएंगी। किसानों के मुद्दे को लेकर वह सरकार को घेरेंगी और साथ ही साथ कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश भी करेंगी। कार्यकर्ता प्रियंका गांधी की इस दौरे के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर चुके हैं। सहारनपुर के चिलकाना में होने वाले इस से पंचायत में भीड़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यहां 144 लगा दिया है। वहीं, कांग्रेस नेता लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को इस पंचायत में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। चिलकाना से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची थीं जबकि 1983 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए राजीव गांधी ने यहां का दौरा किया था।

ग्लेशियर फटने से पहले मछलियों में देखने को मिली थी असामान्य हलचल

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में रविवार को अचानक आई विकराल बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है जबकि 170 से ज्यादा लापता हैं। इन सबसे बीच ग्लेशियर फटने से पहले मछलियों में एक अलग और अजीब व्यवहार देखने को मिला। दरअसल, सुबह 9:00 बजे के आसपास अलकनंदा नदी में मछलियां इकट्ठा हो गईं। आलम यह रहा कि इन नजारों को देखते हुए ग्रामीण बाल्टी और अन्य बर्तनों के जरिए मछलियां पकड़ने लगे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मछलियां पकड़ने के लिए ग्रामीणों को ना तो छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा और ना ही जाल का। लेकिन किसी को आने वाले आपदा के बारे में नहीं पता था। अब जब उस दृश्य को याद किया जा रहा है तो यह माना जा रहा है कि यह मछलियां शायद उस त्रासदी की अग्रदूत थीं। ग्लेशियर फटने से सबसे ज्यादा नुकसान रैनी गांव को हुआ है जो धौलीगंगा के किनारे हैं। धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है।



नई दिल्ली, (एजेंसी)। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजस्थान के गंगानगर में सादा पेट्रोल 98.10 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है जबकि प्रीमियम पेट्रोल 102 रुपए के करीब पहुंच गया है। गंगानगर में डीजल की कीमत 89.73 रुपए प्रति लीटर है। आज पेट्रोल 38 और डीजल 33 पैसे तक महंगा हुआ है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल 87.60 रुपए और डीजल 77.73 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 94.12 रुपए और डीजल 84.63 रुपए प्रति लीटर पर है। इस महीने चौथी बार महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल फरवरी में अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम में 4 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 1.30 रुपए और डीजल 1.25 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले



जनवरी में पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे

तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है जिसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। सोमवार को

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 60 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। रोजाना सुबह 6 बजे तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के रेट ऑयल

इस महीने चौथी बार महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल फरवरी में अब तक पेट्रोल-डीजल के दाम में 4 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 1.30 रुपए और डीजल 1.25 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले जनवरी में पेट्रोल की कीमत में 2.59 रुपए और डीजल में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतें

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है जिसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 60 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।

मार्केटिंग कंपनियों की कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं। पेट्रोल-डीजल का का रेट आप 'डे' के जरिए भी जान सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल के

कस्टमर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं, एचपीसीएल उपभोक्ता 'HPPrice' लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर आज का भाव पता कर सकते हैं।

यूपी की एक तहसील के 33 लोग लापता

इनमें 16 एक ही गांव और 5 एक ही परिवार के

लखीमपुर खीरी, (एजेंसी)। उत्तराखंड त्रासदी में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की निघासन तहसील से 33 लोग लापता हैं। इनमें से 16 इच्छानगर गांव के हैं। उनमें भी पांच तो एक ही परिवार के हैं। इन 33 के अलावा दो और लोग लापता थे, लेकिन इनमें से एक का शव बरामद हो गया है, जबकि एक से परिवार की बात हो गई है। ये सभी तपोवन स्थित छज्ज पावर प्लांट में काम करने गए थे। इच्छानगर गांव के एक ही परिवार से 5 लोग लापता निघासन से करीब 25 किलोमीटर चलने के बाद बाएं हाथ पर पगडंडियों के सहारे तीन किमी दूर इच्छानगर गांव है। यहां लोगों की मीड़ लगी है। हर आने जाने वाली गाड़ी को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। रास्ते में ही जितेंद्र मिलते हैं। बताते हैं कि उनके परिवार के छह

लोग लापता हुए थे। इनमें से एक से बात हो गई है। बाकी पांच का पता नहीं चल सका है। पति और बेटा लापता, बेटे की तो शादी भी तय हो गई थी जितेंद्र अपने चचेरे भाई कृष्णा कुमार के घर ले गए। जहां कृष्णा की पत्नी कौशल्या रोंते-रोते निढाल हो चुकी हैं। घर के बरामदे में अलाव जल रहा है और गांव की महिलाएं और रिश्तेदार उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। कौशल्या ने बताया कि उनके पति कृष्णा (52) और बेटा राजू (23) तीन महीने पहले उत्तराखंड काम करने गए थे। राजू की मंगनी हो गई थी। 24 अप्रैल को उसकी शादी है। कौशल्या को पति-बेटे की सलामती की उम्मीद है, लेकिन जितेंद्र की आस टूट चुकी है। कौशल्या की तीन बेटियां भी हैं। 14 साल की बेटी बेहोशी की हालत में चारपाई पर है, जबकि आठ साल और चार साल की बेटियां

के आंसू नहीं थम रहे। एक युवक का शव मिला, लेकिन परिवार को नहीं बताया गांव की भीड़ में ही हमें लालता प्रसाद मिले। लालता भी उसी परिवार का हिस्सा हैं, जिसके पांच लोग लापता हैं। लालता के बेटे अवधेश (19) की बॉडी मलबे से मिली है, लेकिन परिवार के लोगों ने लालता को बच्चे की मौत के बारे में नहीं बताया है। हालांकि, बच्चे की गुमशुदगी को लेकर परिवार बदहवास है। अवधेश की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में एक छोटी बहन और एक छोटा भाई हैं, जो अपनी मां को संभालने में लगे हैं। गांव से कुछ लोग चंदा करके किराए की गाड़ी से उत्तराखंड गए हैं। वहां से उसे लाने के लिए प्रशासन ने एंबुलेंस की व्यवस्था की है। ये लालता प्रसाद हैं। उनके 19 साल के बेटे अवधेश का शव बरामद हो गया है। हालांकि, गांव वालों ने अभी यह दुखद खबर

नहीं दी है। अवधेश के घर से करीब 10 कदम दूर सद्दाम का घर है। सद्दाम के दो भाई इशरत और जलाल भी काम के सिलसिले में उत्तराखंड गए थे। अब इशरत से तो फोन पर बात हो रही है, जलाल लापता है। बीमार मां ने कहा कि जलाल से आखिरी बार शुक्रवार को बात हुई थी। वह मेरी तबीयत पूछ रहा था। उसने जल्द आने का वादा भी किया था। उसका चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। तीन दिन से घर में खाना नहीं बना है। लापता हुए संतोष ने तो अभी डेढ़ महीने के बेटे का मुंह भी नहीं देखा इच्छानगर गांव से करीब एक किलोमीटर पहले भैरमपुर गांव से भी आठ लोग लापता हैं। इसी गांव के राममूर्ति के तीन बेटे संतोष, मनोज और इंद्रपाल भी उत्तराखंड गए थे। इनमें से संतोष और मनोज लापता हैं। इंद्रपाल से घरवालों की बात हो रही है। राममूर्ति गांववालों के साथ उत्तराखंड के लिए निकल चुके हैं।

इस महीने 25 देशों को दो करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजेगा भारत

कनाडा को दिया तगड़ा झटका

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना काल के इस दौर में भारत लगातार वैक्सीन के जरिए से दुनियाभर के देशों की मदद कर रहा है। भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों को कोरोना टीके की खुराकें भेजी हैं। अब भारत ने फरवरी महीने में कमर्शियल बेसिस पर 25 देशों को दो करोड़ 40 लाख टीके सप्लाई करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने (जनवरी) में भारत ने एक करोड़ पांच लाख वैक्सीन की डोज अन्य देशों को दी थीं। इस महीने भेजी जाने वाली वैक्सीन पिछले महीने की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि विदेश मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को कमर्शियल आधार पर वैक्सीन के एक्सपोर्ट की देखरेख करेगा। भारत ने 20 देशों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एक करोड़ 60 लाख खुराकें भेजी हैं। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, बारबाडोस और डोमिनिका जैसे 13 देशों में लगभग साठ लाख खुराकों की हुई सप्लाई भी शामिल है। ब्राजील, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका सहित सात देशों में कमर्शियल आधार पर लगभग एक करोड़ से अधिक कोरोना टीके की डोज भेजी गई हैं। फरवरी के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार, एसआईआई को सऊदी अरब, ब्राजील, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, मॉरीशस, फिलीपींस, सर्बिया, यूएई और कतर सहित 25 देशों को कमर्शियल आधार पर दो करोड़ 40 लाख खुराकों की सप्लाई करने के लिए कहा गया है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि 25 देशों वाली इस सूची में कनाडा का नाम नहीं है, जिसने हाल ही में दस लाख वैक्सीन के डोज मांगे थे। कनाडा की मंत्री अनीता आनंद को इस सप्लाई उस समय शर्मनाक क्षणों का सामना करना पड़ा था।

ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के जयप्रकाश राही बने जिला संगठक

अमित रेखा ब्यूरो महाराजगंज। ऑल इंडिया कांग्रेस सेवादल ने जनपद महाराजगंज में कांग्रेस सेवा दल का जनपद संगठक जयप्रकाश राही को मनोनीत किया है। उनके इस मनोयन पर प्रदेश उपाध्यक्ष विवेकर चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिला उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, अनुसूचित प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद, प्रदेश सचिव त्रिभुवन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र शुक्ला, महासचिव कुंज बिहारी निषाद, सचिव मोहम्मद हर्ई ऐडवोकेट, राम प्रताप सिंह, विनय तिवारी, हनुमान प्रसाद, प्रभाकर दुबे सहित तमाम लोगों ने बधाई दिया।

गोसाईगंज: पंचर बना रहे मिस्त्री की टायर फटने से मौत

अमित रेखा जुनेद अहमद अयोध्या। गोसाईगंज कोतवाली इलाके में मंगलवार की सुबह मया-टांडा मार्ग पर महबूबगंज बाजार स्थित पुलिस चौकी के



बगल ट्रैक्टर के पहिये का पंचर बना रहे मिस्त्री की टायर फटने से मौत हो गयी। अगल बगल रह रहे लोगों ने चिकित्सकों को बुलाकर दिखाते कि इसके पहले ही उसकी मौत हो गयी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है। हल्का एसआई रणजीत यादव के मुताबिक गोसाईगंज कोतवाली इलाके के उधिरा लालपुर निवासी 45 वर्षीय सियाराम पुत्र राम आधार पुलिस चौकी के बगल पंचर की दूकान चलाकर परिवार का जीविकोपार्जन करता था। मंगलवार की सुबह जैसे ही उसने अपनी दूकान खोली जैसे ही भिठौरा निवासी मनोज चौरसिया पुत्र जगत नारायण अपनी ट्रैक्टर के पंचर हुए पहिये को बनवाने के लिए पहुंच गये। पंचर मिस्त्री सियाराम ने पहिये से बिना हवा निकाले पंचर बनाने लगा कि इसी बीच टायर फट गयी और चपेट में आने से उसकी मौत हो गयी। देर शाम युवक का शव पीएम के बाद घर पहुंचा तो पूरे गाँव में कोहराम मच। उसका अंतिम संस्कार उनीयार के सरसूत पर किया गया।

कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपये का दिया दान

अमित रेखा ब्यूरो रायबरेली अयोध्या। अपने बयानों से अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधने वाली कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपये दान दिया है। वह रायबरेली आए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के निधि समर्पण अभियान के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर-घर जाकर समर्पण निधि एकत्र की जाएगी। रायबरेली आने का मकसद कार्यक्रमियों से मुलाकात करना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा कि राम के काम में जो भी सहयोग देने के लिए आएगा उसका स्वागत है।

सोनू(गुरुजी)जय हिंद क्रिकेट प्रतियोगिता का किया उद्घाटन

स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता हैरूबीरेश कुमार सोनू(गुरुजी)

अमित रेखा ब्यूरो बीकापुर/अयोध्या। बीकापुर विकासखंड अंतर्गत चौरे बाजार के पालीपूर में जय हिंद क्रिकेट प्रतियोगिता (अण्डर19) बजरंग सिंह (प्रबंधक टी.एन.इण्टर कालेज) की अध्यक्षता में आयोजित



टूर्नामेंट उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीरेश कुमार सोनू गुरुजी बीकापुर प्रथम का फूल-मालाओं से आयोजक मंडल द्वारा गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया गया। सोनू गुरुजी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके फ्रीटा काटकर भव्य टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सोनू गुरुजी ने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई में कहा कि जीवन में खेल बहुत जरूरी है, खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है, खेल से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, दिमाग को विकसित करने के लिए भी खेल महत्वपूर्ण है, खेल कई प्रकार के होते हैं, जो हमें शारीरिक व मानसिक विकास में मदद करते हैं, जिस तरह दिमाग के सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने कहा कि क्रिकेट खेल के जगत में भी अपार सम्मानार्थ है, आज के युवा वर्ग में क्रिकेट का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, सभी खिलाड़ी ईमानदारी के साथ बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने समाज और जिले का नाम रोशन करें। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजक तिलक राम, अध्यक्ष बजरंग सिंह (प्रबंधक टी.एन.इण्टर कालेज), अमर बहादुर, कुलदीप कर्नौजिया, संतोष सिंह, बबू सिंह, दिनेश यादव, जावेद फारुखी, मोनू नूर आलम, सोनू वीरेन्द्र अग्रहरि, सोनू पाण्डेय, मोहम्मद असलम, रिकू यादव, मनोज पाण्डेय, मनोज यादव, टेनी पाल सहित सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे।

प्राथमिक विद्यालय म्योनी बना जिले का पहला फुल स्मार्ट क्लास विद्यालय दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रमों से लाभान्वित होंगे बच्चे

अमित रेखा ब्यूरो ताहिर हुसैन हरदोई। सुरसा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय म्योनी में बच्चों के लिए सभी कक्षाएँ स्मार्ट व दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सौगात मिली है। प्राथमिक विद्यालय म्योनी जिले का पहला ऐसा विद्यालय होगा जहाँ बच्चे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सभी शैक्षिक कार्यक्रमों से सीधे जुड़ सकेंगे। विद्यालय को ये सौगात, बबू लाल सचिव मंडी परिषद हरदोई व विशिष्ट अतिथि तुषार शर्मा वरिष्ठ विद्वि अधिकारी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन हरदोई के सौजन्य से प्राप्त हुई है। जिनकी ओर से बच्चों के लिए सभी कक्षाओं के लिए स्मार्ट टेलीविजन व D-T-H-डिजिटल, और रीडिंग कॉर्नर की सौगात दी। विशिष्ट अतिथि डॉ सत्यप्रकाश यादव खण्ड शिक्षा अधिकारी टडियावाँ ने कहा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल

आज ये विद्यालय जनपद का पहला विद्यालय होगा जहाँ बच्चे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। हमेशा अच्छी कार्यशैली के कारण ही विद्यालय की पहचान प्रदेश पटल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए

बच्चों की संचालित हो रही क्लास

अमित रेखा ब्यूरो ताहिर हुसैन हरदोई। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में चलाए जा रहे हमारा गांव खुशहाली शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लाक पसगांव एवं पिहान के चयनित 10 गांव में बच्चों के हित में शिक्षा से संबंधित माँ हल्ले व 10-15 बच्चों के समूह क्लास संचालित करवाई जा रही है। जिसका संचालन उसी गाँव के स्वयंसेवी के माध्यम से किया जा रहा है। संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस महामारी के दौरान भी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था खराब न होने पाए और आगामी दिनों में बच्चों का पढ़ाई से लगातार लगाव बरकरार रहे इसी के चलते संस्था के टीम सदस्यों के द्वारा अपने अपने चयनित गांव अजबापुर, लोदियापुर, अमथपुर, गोविन्दपुर, सोहौना, कुतुबापुर, मुक्कदरपुर, पनई, कुँवरपुर, मधेला, महमूदपुर भगत, गाँवों में बच्चों एवं अभिभावकों के मोबाइल पर एस एम एस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिदिन पढ़ने हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री भेजकर उन सभी अभिभावकों से बातचीत किया जाता है और उस टास्क को कैसे हल करें उसकी फोटो हम लोगों के साथ साझा की जाती है इस तरह से एक शिक्षा के माहौल को बरकरार रखने के लिए संस्था प्रयासरत है संस्था के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर धर्मात्मा यादव टीम सदस्यों में रितेश यादव, प्रमोद यादव, प्रद्युम्न सिंह, अजबापुर चीनी मिल से सीएसआर को ऑर्डिनेटर हिमांशु कुलश्रेष्ठ इत्यादि।

पूर्व प्रधान राम नरेश सिंह ने भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण में दिया 51111 रुपये

अमित रेखा -दिनेश गुप्ता भटनी - देवरिया। भटनी विकास खंड के साहोपार गाँव के पूर्व प्रधान रामनरेश सिंह ने अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के लिए श्रीराम जन्मभूमि निर्माण निधि में अपने



परिवार के 51111 की राशि समर्पित किया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि घर पर कुछ कार्यक्रम था इसीबीच श्रीराम जन्मभूमि निर्माण निधि में धन संग्रह के लिए दरवाजे पर विश्व हिंदू परिषद व आर एस एस के लोग आ गये। इतने बड़े पुनीत के कार्य में अपने को जोड़ते हुए अपने पुत्रों विजय प्रताप सिंह, तेज प्रताप सिंह व उदय प्रताप सिंह के साथ मिलकर इकावन हजार एक सौ ग्यारह रुपये की धन राशि समर्पित किया। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार समर्पण राशि के रूप में अभियान समिति के लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण में वर्तमान पीढ़ी को अपनी सहभागिता निभाने का मौका मिल रहा है। यह बहुत ही गर्व का विषय है कि हमें भगवान श्रीराम की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मेरा पुरा परिवार इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने भी भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। धन संग्रह अभियान के अवसर पर साहोपार में पूर्व प्रधान रामनरेश सिंह के वहां सन्तोष जी विभाग सगठन मंत्री विश्व हिन्दू परिषद, नागेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष विश्व हिन्दू परिषद, प्रवीण जिला प्रचारक आरएसएस, राजेश जिला मंत्री विश्व हिन्दू परिषद, हरिओम खण्ड कार्यवाहक आर एस एस, दिपक वर्मा, प्रदीप, योगेश प्रजापति, प्रतिक मिश्रा, संतोष तिवारी, आशीष पासवान, अभय तिवारी, शिवमंगल सिंह, अशोक तिवारी, मोहन लाल गुप्ता विक्रान्त सिंह संतोष सिंह अमित तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी सुरसा भगवान राव ने विद्यालय के बारे में कहा कि हमारे जनपद हरदोई में सुरसा ब्लॉक का पहला ऐसा विद्यालय



आज आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है जिसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अमेश कुमार गोस्वामी, नाथ दीक्षित, धिंजय कुमार, श्रुति देवी, राजेश कुमार, तथा काफी संख्या में अभिभावक गण उपस्थित रहे।

सपा नेता व पूर्व राज्यमंत्री पवन पांडे की प्रेसवार्ता

अमित रेखा ब्यूरो अयोध्या। अयोध्या के विकास को लेकर



समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा। सपा नेता व पूर्व राज्यमंत्री पवन पांडे का बयान। कहा अयोध्या में सपा लागू राम राज्य। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं सपा की सरकार आते ही अयोध्या नगर निगम के सभी टैक्स होंगे माफ। पवन पांडे ने कहा। अगर भाजपा सरकार की राम के प्रति श्रद्धा तो अयोध्या को करें टैक्स फ्री। तभी सपा मानेगी अयोध्या के प्रति भाजपा सरकार की है श्रद्धा। अयोध्या को छलने और टगने का काम जारी। नया घाट से सहआदतगंज मार्ग चौड़ीकरण का उठाया मुद्दा। कहा व्यापारी परेशान। सरकार को चाहिए अधिकारी व्यापारियों से करें वार्ता। समन्वय स्थापित कर व्यापारी को करें संतुष्ट। व्यापारी चबराहट में। कब उनके घरों व दुकानों पर चल जाए भाजपा सरकार का बुलडोजर। क्रूरता दिखाने व मुकदमा दर्ज करने की धमकी से नहीं आगगा रामराज्य- पवन पांडे।

स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है लोगों को जागरूक

अमित रेखा -भोला यादव विकास कंचनपुर तरकुलवा। देवरिया के विकास खण्ड तरकुलवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी ग्राम सभाओं में स्पर्श कुष्ठ



जागरूकता अभियान के तहत कुष्ठ रोग के बारे में सहायक कुष्ठ चिकित्सक मुन्ना यादव द्वारा प्रतिदिन गांवों में जाकर कुष्ठरोग के लक्षण, उपचार, बचाव एवं लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसी क्रम में आज ग्राम अहिशैली, कंचनपुर, कैथवलिया, गांवों में आज लोगों को जागरूक किया गया। मुन्ना यादव द्वारा बताया गया कि कुष्ठरोग छुआ छूट की बीमारी नहीं है यह रोग एम लैप्री नामक कीटाणु से होता है जिसका समय से इलाज कराने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है इसकी दवाई सभी अस्पतालों पर मुफ्त में मिलता है, स्पर्श कुष्ठ रोग अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, कुष्ठरोग परामर्श दाता डाक्टर इरशाद ने बताया कि जिले में यह अभियान सभी जगह सुरु रूप से चल रहा है।

गरीब मृतक के परिवार की मदद को आगे आए समाजसेवी अनित शुक्ला

अमित रेखा अयोध्या ब्यूरो। बाबा बाजार के पूरे दीवाना

उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, हर एक दो दो बेटियों



कछौली, रतनपुर गाँव निवासी दुःखी राम 48 वर्ष मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करते थे घर की जिम्मेदारियों की हर पल चिंता ऊपर से कठोर मेहनत की वजह से धीरे धीरे दुःखी राम को बीमारियों ने जकड़ लिया, तमाम जगह अपना इलाज कराने के बाद भी

के विवाह की चिंता दुःखी राम को और चैन की सांस नहीं लेने दे रही थी, परिवार की जिम्मेदारियों और अपनी बीमारी से लडते लडते दुःखी राम अंततः जिन्दगी की जंग हार गए परिवार मे पत्नी राम दुलारी बेटा शिवा नन्द व तीन बेटियाँ हैं एक बेटे की शादी तो दुखी राम ने कर दी थी परन्तु अभी दो लडकियों

100 शैथ्या अस्पताल कुमारगंज के दिन बहुरे शासन ने एक दर्जन चिकित्सकों एवं 10 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की

अमित रेखा अयोध्या। मिर्लीपुर, अयोध्या मिर्लीपुर तहसील अन्तर्गत कुमारगंज क्षेत्र में बने सौ शैथ्या चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था उसके बावजूद भी क्षेत्रीय लोगों समेत पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर- अमेठी के लोग इलाज करवाने के लिए सौ शैथ्या चिकित्सालय पहुंचते थे लेकिन चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी होने के चलते मरीजों का सही उपचार नहीं हो पा रहा था।



अस्पताल में प्रतिदिन 200 से 300 ओपीडी होती थी उसके बाद भी चिकित्सकों एवं सर्जनों की तैनाती नहीं हो पा रही थी। शासन के संज्ञान के बाद बहुप्रतीक्षित सौ शैथ्या अस्पताल

कुमारगंज में 5 साल बाद एक दर्जन चिकित्सकों एवं 10 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई। अस्पताल के अधीक्षक एचआर वर्मा ने बताया कि मंगलवार को अस्पताल में पहला प्लास्टर किया गया। जिन चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स की तैनाती हुई है अस्पताल पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। अस्पताल में फिजिशियन एमडी फार्मा, फिजिशियन एमडी मेडिसिन

ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षकों की एक दिवसीय बैठक संपन्न

अमित रेखा मुनीर आलम राजन बिरेंद्र यादव महाराजगंज। ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय बैठक जन स्वास्थ्य रक्षकों एवं सैचिक्क कार्यकर्ताओं का बैठक जिला मुख्यालय धरना परिसर में संपन्न हुआ। उक्त संगठन के अध्यक्ष बाकैलाल बौद्ध के तत्वाधान में संपन्न किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बौद्ध ने कहा कि जन स्वास्थ्य रक्षक योजना सन 1977 में केंद्रीय सरकार मंत्री

स्वर्गीय राजनारायण ने शुभारंभ किया था जो सन 2002 में अचानक बंद कर दिया गया, तब से आज तक सत्ता में तमाम पार्टियां और सत्ता विहीन हो चली गई लेकिन जन स्वास्थ्य रक्षक योजना पर ध्यान नहीं रखा गया परंतु प्रधान सरकार में ही परिवार कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के दिशा निर्देश पर जन स्वास्थ्य रक्षकों का सर्वे हुआ और महानिदेशालय से सभी प्रक्रिया पूरा करके 18- 8 -2020 को चिकित्सा अनुभाग में 9 उत्तर प्रदेश शासन में भेज दिया गया है। तथा प्रक्रिया पूरी करके दिनांक 15-01- 2021 को सूबे के मुखिया व प्रदेश सरकार तब

लोक कल्याणकारी ऐतिहासिक बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव

अमित रेखा - मनीष तिवारी, पिपराघाट - कुशीनगर। जनपद के सेवरही ब्लॉक सभागार में लोक कल्याणकारी ऐतिहासिक बजट की खुशी मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बंका सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक बजट बना है वह काबिलेतारी है। इसी क्रम में बंका सिंह ने बताया कि

कुष्ठ पदाधिकारियों को अनुशासन में रहने की जरूरत नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कारवाई होगी व वरिष्ठ भाजपा नेता बड़का बाबू ने सभी कार्यकर्ता को एखजुट रहने का सलाह दिया अंत में मंडल अध्यक्ष रवीन्द्र गुप्ता ने आए हुए सभी भाजपा कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त किया व इस कार्यक्रम के दौरान बंका सिंह के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता मनोनीति सभासद बड़का बाबू, मोती जायसवाल, प्रहलाद केशरी, विनय तिवारी, रामरेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष रवींद्र गुप्ता, मंडल महामंत्री अंजनी तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष मारकंडेय वर्मा, रजनीकांत चौबे, जिला कार्यसमिति सदस्य हिमांशु जायसवाल, पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष राहुल वर्मा, मंडल मंत्री मनीष तिवारी, ऋषिकेश तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, दिलीप जायसवाल, कोषाध्यक्ष अजय कश्यप समेत तमाम लोग मौजूद रहे।



विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की अगुआई करेंगे अय्यर, पृथ्वी शश्व होंगे उप कप्तान

मुंबई। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बुधवार को 20 फरवरी से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम का कप्तान बनाया गया जो कंधे की चोट के कारण सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में नहीं खेल पाये थे। मुंबई क्रिकेट संघ ने घरेलू 50 ओवर की चौपियनशिप के लिये 22 सदस्यीय टीम की घोषणा की। भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को मुंबई टीम का उप कप्तान बनाया गया। बल्लेबाजी विभाग में टीम में भारतीय हरफनमौला शिवम दुबे, सीमित ओवर के विशेषज्ञ सूर्यकुमार यादव, युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी, सरफराज खान और अखिल हरदादकर के साथ अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज आदित्य तारे भी शामिल हैं। गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई अनुभवी तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी करेंगे जिसमें तुषार देशपांडे और आकाश पावरकर तथा स्पिनर शम्स मुलानी और अर्धव अंकोलेकर मौजूद हैं। मुंबई ने मंगलवार को भारतीय ऑफ स्पिनर रमेश पोवार को टूर्नामेंट के लिये अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। मुंबई को एलीट ग्रुप डी में दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पुडुचेरी के साथ रखा गया है। मुंबई की टीम जयपुर में अपने सभी मैच खेलेगी।

भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद

बोले जो रुट, हमने नए मानदंड कायम किए

चेन्नई। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रुट ने कहा कि उनकी टीम ने नये मानदंड कायम किये हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीलंका में स्पिनरों की मददगार विकेट पर खेलकर आने से उन्हें तैयारी में मदद मिली। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 227 रन से हराकर चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली। रुट ने कहा, "मुझे अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व है। हमने नये मानदंड कायम किये हैं। हमें अभी भी कुछ पहलुओं में सुधार करना होगा। हम इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।" उन्होंने कहा, "हमें पता है कि भारतीय टीम बहुत अच्छी है, खासकर इन हालात में। उन्हें अपने क्रिकेट पर गर्व है। उनके पास शानदार खिलाड़ी भी हैं।" मैच में दोहरा शतक जमाने वाले कप्तान ने कहा कि श्रीलंका में मिली तैयारी से काफी मदद मिली। उन्होंने कहा, "इससे काफी फायदा हुआ। वहां हमने स्पिन गेंदबाजों को खूब खेला और श्रृंखला जीतने से आत्मविश्वास भी बढ़ा। उसी तरह की विकेट पर फिर खेलकर लय को बरकरार रखने में मदद मिली हालांकि विकेट वैसी ही नहीं थी लेकिन उपमहाद्वीप में खेलने का अनुभव काम आया।" रुट ने कहा कि अब इस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती सामने होगी। उन्होंने कहा, "क्या हम इसे दोहरा सकते हैं या इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं क्या हम टीम के रूप में और बेहतर कर सकते हैं, ये सब चुनौतियां होंगी।" दूसरे दिन पारी घोषित नहीं करने के उनके फैसले की काफी आलोचना हुई थी, इस पर रुट ने कहा कि वह भारत को जीत का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, "मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि मैच के दो ही संभावित नतीजे हों। अगर हम यह मैच हार जाते तो खराब शुरुआत होती।

सरकार ने ऑनलाइन जगत में गैरकानूनी सामग्री

पर नजर रखने के लिए पंजीकरण कराने को कहा

नयी दिल्ली। देश की संप्रभुता के खिलाफ, महिलाओं और बच्चों से दुर्व्यवहार तथा कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयासों वाले पोस्ट को रोकने की दिशा में "समन्वित और समग्र तरीके से" साइबर जगत पर नजर रखने में मदद के लिए सरकार ने आम लोगों को साइबर अपराध स्वयंसेवक के तौर पर पंजीकृत कराने को कहा है। केंद्रीय मंत्रालय की इस पहल को इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) नाम दिया गया है। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह इसकी शुरुआत की गयी, जहां पुलिस ने एक परिपत्र जारी कर नागरिकों से स्वयंसेवक के तौर पर पंजीकृत कराने के लिए कहा है। स्वयंसेवकों से भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ, देश की रक्षा, राज्य की रक्षा, मित्र देशों के खिलाफ पोस्ट, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली विषय वस्तु और बाल यौन उत्पीड़न वाली सामग्री के खिलाफ नजर रखने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ कोई भी भारतीय नागरिक साइबर स्वयंसेवकों की तीन श्रेणियों— गैर कानूनी विषयवस्तु पर नजर रखने वाले स्वयंसेवक, साइबर जागरूकता को बढ़ाने वाले या साइबर विशेषज्ञ में से किसी में पंजीकरण कराते हुए इससे जुड़ सकता है। पहली श्रेणी से बाल पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, आतंकवाद, कट्टरवाद, देशविरोधी गतिविधियों जैसे अवैध कृत्यों की पहचान में मदद मिलेगी। दूसरी श्रेणी से साइबर जगत में नागरिकों के बीच महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, ग्रामीण आबादी जैसे जोखिम वाले समूहों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। साइबर विशेषज्ञ की श्रेणी के तहत स्वयंसेवक खास तौर पर साइबर अपराध, फॉरेंसिक, नेटवर्क फॉरेंसिक, मालवेयर विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी जैसे विषयों पर मदद करेंगे। पहली श्रेणी में पंजीकरण के लिए पहले से सत्यापन की जरूरत नहीं है लेकिन दो अन्य श्रेणियों में स्वयंसेवक बनने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) शर्तों के तहत पंजीकरण होगा। स्वयंसेवकों को अपना पूरा नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस, आवासीय पता देना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वयंसेवकों के विवरण तक साइबर अपराध पर नोडल अधिकारी तथा केंद्रशासित क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (अपराध शाखा) की पहुंच होगी। गुह मंत्रालय के एक दस्तावेज में कहा गया है, "आई4सी के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे अकादमिक, उद्योग, जनता और सरकार के लोग साइबर अपराध का पता लगाने, जांच और अभियान की प्रक्रिया में साथ आए।"

भारत विश्व टेस्ट चौपियनशिप तालिका में चौथे स्थान पर खिसका, इंग्लैंड शीर्ष पर

भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान तय किया कि डब्ल्यूटीसी लीग तालिका टीमां द्वारा अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर तय होगी।

दुबई। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट में 227 रन की हार के साथ भारत विश्व टेस्ट चौपियनशिप तालिका में चौथे स्थान पर खिसका गया जबकि मेहमान टीम ने पहली बार हो रही इस चौपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस बारे में कहा, "लॉकडाउन के दौरान अचानक बदल गए तो हम

कुछ नहीं कर सकते।" भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान तय किया कि डब्ल्यूटीसी लीग तालिका टीमां द्वारा अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर तय होगी। उन्होंने कहा, "हमारे लिये कुछ नहीं बदला है। अगर लॉकडाउन में नियम बदल गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम बस मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।" उन्होंने नियम में बदलाव पर नाराजगी जताते हुए कहा, "हम तालिका या किसी बाहरी चीज को लेकर चिंतित नहीं हैं। कुछ चीजों का कोई तर्क नहीं होता। आप घंटों बहस कर सकते हैं लेकिन आपका नियंत्रण सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने पर ही हो सकता है।" इस साल लार्ड्स में होने वाले



फाइनल के लिए न्यूजीलैंड की टीम पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है। उसका विजयी अंकों का प्रतिशत 70.0 है

और उसे अब कोई श्रृंखला नहीं खेलनी है। आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार चेपक में जीत के साथ इंग्लैंड 70.2 प्रतिशत अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और उसके उन तीन नतीजों में से एक हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है जो उसे फाइनल में जगह दिला देंगे। इंग्लैंड अगर 3-1, 3-0 या 4-0 से जीत दर्ज करता है तो फाइनल में खेलेगा। पिछले महीने आस्ट्रेलिया में एतिहासिक श्रृंखला जीतने के बाद भारत शीर्ष पर चल रहा था लेकिन अब 68.3 अंक के साथ चौथे स्थान पर खिसका गया है। टीम इंडिया को फाइनल में जगह बनाने के लिए बाकी बचे तीन मैचों में से कम से कम दो जीतने होंगे क्योंकि 2-1 या 3-1 के नतीजे के साथ ही वह फाइनल में जगह बना सकता

है। आस्ट्रेलिया के 69.3 अंक हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही टेस्ट श्रृंखला अगर ड्रॉ रहती है या इंग्लैंड 1-0, 2-1 या 2-0 से जीत दर्ज करता है तो आस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका को घरेलू श्रृंखला में 2-0 से हराने के बाद पाकिस्तान चौपियनशिप तालिका में 43.3 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रहेगा। दक्षिण अफ्रीका 30.0 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर खिसका गया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में एतिहासिक जीत के बाद वेस्टइंडीज 23.8 प्रतिशत अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश की टीम अबतक स्थान पर है जिसने अब तक कोई अंक हासिल नहीं किए हैं।

कोई बहना नहीं लेकिन हमारा 'बॉडी लैंग्वेज' और जज्बा स्तरीय नहीं था: कोहली

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले को 227 रन से गंवाने के बाद कहा कि उनकी टीम का 'बॉडी लैंग्वेज (भाव-भंगिमा)' और जज्बा स्तरीय नहीं था।



चेन्नई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले मुकाबले को 227 रन से गंवाने के बाद कहा कि उनकी टीम का 'बॉडी लैंग्वेज (भाव-भंगिमा)' और जज्बा स्तरीय नहीं था जिसके कारण उन्हें पहले टेस्ट में अधिक पेशेवर और निरंतर प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। चौथी पारी में जीत के लिए 420 रन के

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 192 रन पर ऑल आउट हो गयी। सिर्फ कोहली (72) और शुभमन गिल (50) खराब होती पिच पर इंग्लैंड के आक्रमण का कुछ देर टिककर सामना कर सके। कोहली ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, "हमारा 'बॉडी लैंग्वेज' और जज्बा स्तरीय नहीं था जिसके कारण उन्हें पहले टेस्ट में अधिक पेशेवर और निरंतर प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। चौथी पारी में हम अच्छी स्थिति में थे।

सहकारी बैंकों के 98.5 प्रतिशत खाताधारकों के पैसे सुरक्षित : ठाकुर

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि सहकारी बैंकों में खाते रखने वाले 98.5 प्रतिशत लोगों के पैसे सुरक्षित हैं क्योंकि उनकी रकम पांच लाख रुपए से कम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में जिन लोगों के खाते होते हैं, उनमें लगभग 98.5 प्रतिशत लोगों का सारा पैसा सुरक्षित होता है। क्योंकि उनकी रकम पांच लाख से कम है। उन्होंने कहा कि विगत में बैंकों में दिक्कतें आने पर लोगों को पैसे नहीं मिलते थे क्योंकि जमा बीमा कवर सिर्फ एक लाख रुपए का ही होता था और मौजूदा सरकार ने इस कवर को बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर दिया है। यह प्रावधान सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं। ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एनपीए (गैर-निष्पादित आस्तियां) 11.18 प्रतिशत से कम होकर 7.49 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे बैंक अच्छा काम कर रहे हैं और भारत जैसे देश में, हमें अधिक बैंकों और मजबूत बैंकों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले छह वर्षों में विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें बैंकों को पुनर्पूजीकरण करना, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना शामिल है। इसके अलावा विभिन्न ऋणों के लिए परिस्पति गुणवत्ता समीक्षा की जा रही है। ठाकुर ने कहा कि रिजर्व बैंक, सेबी आदि जैसी नियामक संस्थाओं के पास क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है, क्योंकि वे न तो मौद्राण हैं और न ही संपत्ति और न ही प्रतिभूतियां। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून इस विषय से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और सरकार ने इस संबंध में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट दी।

पंत बल्लेबाजी में प्रतिभा का खजाना लेकिन विकेट-कीपिंग में पालने की बच्चे की तरह: किरमानी

पुणे। भारत के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर सैयद किरमानी ने ऋषभ पंत को बल्लेबाज के तौर पर प्रतिभा का खजाना करार दिया लेकिन विकेटकीपर के तौर पर इस खिलाड़ी की तुलना 'पालने (झूला)' के बच्चे से की। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम को श्रृंखला जिताने में नायक रहे पंत की बल्लेबाजी की अकसर तारीफ होती है जबकि विकेट के पीछे के उनके प्रदर्शन की आलोचना होती है। किरमानी ने यहां कहा, "ऋषभ पंत प्रतिभा का एक खजाना है, वह नैसर्गिक तौर पर शॉट खेलने वाला बल्लेबाज है। लेकिन विकेटकीपर के तौर पर उसे बहुत कुछ सीखना है। उसे यह भी सीखना होगा कि कब बड़ा शॉट लगाना है, जैसा कि उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था।" भारतीय टीम के 71 साल के पूर्व विकेटकीपर यहां विंडेक्स इंडिया के दूत के तौर पर 'साउंड सेंटर फॉर हियरिंग केयर' के लिए पहुंचे थे। पंत को विकेट कीपिंग के कुछ नुस्खे देते हुए, किरमानी ने कहा, "उन्हें (पंत)विकेट कीपिंग में बुनियादी सही तकनीक की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। एक कीपर की क्षमता का अंदाजा तभी लगाया जाता है जब वह स्टंप्स के निकट खड़ा होता है।" उन्होंने कहा, "वह दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा विकेटकीपिंग कर सकता है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है जहां आप रिविंग और गेंद का उछाल देखकर उस मुनाबिक अनुमान लगा सकते हैं।" भारत के लिए 1976 से 1986 के बीच 88 टेस्ट और 49 एकदिवसीय खेलने वाले किरमानी ने कहा कि बल्लेबाज के तौर पर पंत को परिस्थितियों के हिसाब से खेलना होगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि वह इसे सीखेंगे क्योंकि अभी काफी युवा है। उन्होंने कहा, "ब्रिसबेन में उसने काफी संतुलित पारी खेली जिससे हम पहली बार वहां जीत दर्ज कर सके। ऐसे कई मौके थे जब पंत भारत को जीत दिला सकते थे लेकिन उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। किरमानी ने माना कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की शुरुआती पारी में भी पंत ने गलत समय अपना विकेट गंवा दिया। पंत ने इस पारी में 88 गेंद में 91 रन बनाये थे। इस मैच का इंग्लैंड ने 227 रन से अपने नाम किया। उन्होंने कहा, "यहां भी यही हुआ, जब कोई बल्लेबाज 80 रन के करीब पहुंचता है तो उसकी कोशिश शतक पूरा करने की होती है, इसके लिए आपको जोखिम लेने से बचना होता है। आप यह नहीं कह सकते कि शॉट खेलना आपका नैसर्गिक खेल है, आपको परिस्थितियों के मुताबिक खेलना होता है।" किरमानी ने हालांकि ऑस्ट्रेलिया में उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की। जहां सिडनी में उनकी 97 रन की पारी से भारत मैच ड्रा कराने में सफल रहा और ब्रिसबेन में उनकी नाबाद 89 रन की पारी से मैच और श्रृंखला जीतने में सफल रहा। उन्होंने कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया में उसका खेल पसंद आया, वह संतुलित था। जहां रक्षात्मक खेल की जरूरत थी वहां उसने रक्षात्मक खेला और जहां आक्रामक खेल की जरूरत थी वहां वह खुल कर खेला। उसे हर पारी को ऐसे ही खेलना होगा, जो अनुभव के साथ आयेगा। वह सीख रहा है और अभी युवा है।

9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए सुप्रीम गुहार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को 9 राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली पेंडिंग याचिका विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की गुहार पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में इससे संबंधित तमाम केसों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि नेशनल कमिशन फॉर माइनोंरिटी एक्ट के उस प्रावधान को खत्म किया जाए जिसके तहत देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। साथ ही गुहार लगाई गई है कि अगर कानून कायम रखा जाता है तो जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें राज्यवार स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नेशनल कमिशन फॉर माइनोंरिटी एक्ट 1992 के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाएं जो तमाम राज्यों के हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि संसद, सरकार ने माइनोंरिटी एक्ट की धारा-2 (सी) के तहत मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया है लेकिन उसने यहूदी बहाई को अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया गया। साथ ही कहा गया है कि देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका में कहा गया कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में हिंदू की जनसंख्या अल्पसंख्यक तौर पर

है। याची ने कहा कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक होने के कारण हिंदुओं को अल्पसंख्यक का लाभ मिलना चाहिए लेकिन उनका लाभ उन राज्यों के बहुसंख्यक को दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने 2002 इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि भाषाई और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों की मान्यता भाषाई आधार पर हुई है ऐसे में अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार होना चाहिए न कि देश के लेवल पर हो सकता है। ऐसे में भाषाई और धर्म के आधार पर स्टेटवाइज ही अल्पसंख्यक का दर्जा होना चाहिए और राज्यवार ही इस पर विचार होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार ही होना चाहिए और वह भाषा और धर्म के आधार पर राज्यस्तर पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2020 को मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट, मेघालय हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में इससे संबंधित केस पेंडिंग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अलग-अलग हाई कोर्ट में केस होने से अलग अलग मत आ सकते हैं ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि नेशनल कमिशन फॉर माइनोंरिटी एक्ट 1992 की धारा 2 (सी) को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए जिसके तहत अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है।

सम्पादकीय.....

आपदा के कारणों की हो पड़ताल

उत्तराखंड में अमी जो आपदा आयी है, ऐसी आपदा 2012 और 2014 में भी आयी थी, वर्ष 2013 की तबाही तो बहुत बड़ी थी, यहां लगातार इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं, इतना ही नहीं, भूकंप, भारी बारिश के कारण बाढ़, बادل का फटना आदि यहां के लिए कोई नयी बात नहीं है। समय-समय पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। वर्ष 2019 में एक ही मानसून में उत्तराखंड में 23 जगहों पर बادل फटने की घटना हुई थी, असल में उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, यहां इस तरह के हादसों की आशंका बनी रहती है, पहली बात यह कि यह बहुत ही भूकंप प्रवण क्षेत्र है, यहां बहुत-सी टैक्टोनिक्स प्लॉट लाइंस हैं, उसकी वजह से यहां लगातार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं और बड़ा भूकंप आने का खतरा बना रहता है, इस कारण भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। यहां के ग्लेशियर क्षेत्र में भी लगातार भूकंप आते रहते हैं। इसलिए यहां पर हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही जहां ग्लेशियर झीलें हैं, वहां भी इन झीलों के टूटने की आशंका बढ़ जाती है, दूसरी बात, यह बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहां पर काफी ग्लेशियर हैं, इस कारण यहां पर बर्फ भी बहुत ज्यादा होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और छोटे छोटे जा रहे हैं, इस कारण जो ग्लेशियर झीलें बनती हैं, उनके टूटने से बाढ़ (ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड) आने की आशंका बनी रहती है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां हिमस्खलन भी होता है और अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ आने की आशंका भी रहती है, क्योंकि जो पानी भरसता है, वह कई जगहों पर बहुत जल्दी नदी में उतर आता है, इसका कारण वनों की कटाई है, इस क्षेत्र में पहले जहां भी प्राकृतिक जंगल थे, वहां बारिश आने पर पानी को अवशोषित करने की क्षमता थी, जहां पर प्राकृतिक जंगल खत्म हो गये, उन जगहों पर बारिश के पानी को अवशोषित करने की क्षमता कम हो गयी है, इनमें जलवायु परिवर्तन के जुड़ जाने से बर्फबारी, बारिश आदि के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है, इस कारण यहां आपदा आने की आशंका में वृद्धि हुई है, तीसरा कारण है विकास कार्यों के नाम पर वृद्धि में होनेवाली दखलअंदाजीय जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सड़कें, टनल, ब्लारिस्टिंग, माइनिंग आदि, ऐसी गतिविधियां आपदा आने की आशंका कई गुना बढ़ा दे रही हैं, दिक्कत है कि इन सब परियोजनाओं को शुरू करने के पहले इस इलाके का जिस तरह से अध्ययन होना चाहिए कि इन परियोजनाओं का इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह नहीं होता है। क्य़ादे से इस क्षेत्र के अध्ययन के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय होना चाहिए कि फलां परियोजना इस क्षेत्र के अनुकूल है या नहीं? चौथा कारण है हाइड्रो पावर जैसी परियोजनाएं, सड़कें, रेलवे लाइन आदि बनाने में निग्रहों का होनेवाला उल्लंघन, रेणी गांव, जहां से इस हादसे की शुरुआत हुई, वहां ऋषिगंगा हाइड्रो पावर बनाने के लिए ब्लारिस्टिंग, माइनिंग हो रही थी, गांव के लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया था, इसके लिए उच्च न्यायालय में याचिका डाली थी, इसके बावजूद यह परियोजना शुरू हुई, इससे आपदा क्षमता में कई गुना की वृद्धि हो गयी, इस तरह की परियोजनाएं हादसे को इसलिए न्योता देती हैं कि इन्हें बनाने के लिए वनों की कटाई होती है, नदी में जैव-विविधता खत्म हो जाती है, ढलान में भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है, इन परियोजनाओं को बनाने और पूरा करने के क्रम में लाखों क्यूबिक टन कीचड़ पैदा होता है।

आज का राशिफल

मेष :- निकटस्थ सम्बन्धों में शंकाओं को न हावी होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के आसार हैं। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सम्बन्धों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। जीवन सुखमय होगा।

बृषभ :- अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी। आकांक्षाओं की पूर्ति के आसार बनेंगे।

मिथुन :- संबंधों में कटु वचनों का प्रयोग न करें। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अच्छे कार्यों द्वारा प्रशंसा के पात्र बनेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए ग्रहों का सहयोग प्राप्त होगा।

कर्क :- बीती हुई बातों को भूलने की कोशिश करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर बनेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह बढ़ेगा।

सिंह :- नकारात्मक चिन्ताओं को त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएँगी। भाववेष में किये गये कार्य से कष्ट होने की संभावना। संभल कर कार्य करें।

कन्या :- किसी नए कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केन्द्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा।

तुला :- महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यय के योग हैं। कार्य क्षेत्र में बेवस्तता बढ़ेगी। परिवार में कोई सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।

वृश्चिक :- परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव्र। आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं।

धनु :- मन सुन्दर कल्पनाओं से प्रभावित होगा। नए सम्बन्ध के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। अनावश्यक सपनों के झोंसे में न आएं।

मकर :- विभागीय परिवर्तन से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लाएं। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। सफलता के आसार हैं।

कुंभ :- राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए अनुकूल समय। अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा भी होंगी। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।

मीन :- भावनात्मक समस्याओं पर सम्बन्धों में खुल कर बात करें। कुछ नये उत्साह व क्षमता की अनुभूति करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर न टालें। प्रियजनों का सन्निध्य प्राप्त होगा।

सेलेब्रिटी, सत्ता और समर्पण

सुभाष गाताई

निश्चित तौर पर इन्हीं क्षेत्रों से ऐसी तापसी पन्नी जैसी आवाजें भी थीं जिन्होंने इन सेलेब्रिटीज के इस श्रीद्विहीन रवैयेश की आलोचना की और साफ-साफ कहा कि अगर एक टवीट उनकी एकता को बाधित करता है, एक जोक आपकी आस्था को चोट पहुंचाता है या एक शो आप के धार्मिक विश्वासों को खरोंच पहुंचाता है तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी मूल्य प्रणाली को मजबूत करें न कि दूसरों के लिए श्रृंखलाएं की भूमिका में आ जाएं। तापसी पन्नी की चेतावनी सर आंखों पर लेकिन इन दिनों आलम यह है कि अधिकतर सेलेब्रिटीज ने अपना पक्ष चुन लिया है, उन्हें शायद इस बात से भी गुरेज नहीं है कि पब्लिक में उनकी क्या छवि बन रही है? आल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा की इस बात से क्या सहमत हुआ जा सकता है।

भारतरत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंडुलकर, क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, बैडमिंटन खिलाड़ी साइली नेहवाल, खिळा के नागरिक एवं एक्टर अक्षय कुमार, फिल्म अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्देशक करण जोहर आदि आदि नामवरों में क्या समानता है? जाहिर है ऊपरी तौर पर कोई समानता दृढ़ता मुश्किल है, कोई सुरों की सम्राज्ञी तो कोई अभिनय का तीरंदाज तो कोई खेल की दुनिया का सरताज! बहरहाल, पिछले दिनों अचानक उनका साझापन नमूदार हुआ जब इन सभी ने लगभग एक जुबां में टवीट किया और विगत कई महिनों से चल रहे किसान आन्दोलन के सामंजस्यपूर्ण समाधान की हिमायत कर डाली। संयोग यह था कि उनकी यह हिमायत रिहाना नामक चर्चित विश्वस्तरीय पॉप गायिका-टिक्टर पर जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं- द्वारा किसान आन्दोलन को लेकर जारी एक टवीट और इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई सामंजस्यपूर्ण प्रतिक्रिया के बाद सामने आई। दिलचस्प था कि उनके बयानों की एक जैसी भाषा, भारत के समग्रता पर कोई बाहरी ताकत आंच नहीं ला सकती ऐसी उनकी उद्घोषणा जहां उनमें मौलिकता की कमी को उजागर कर रही थी वहीं लोगों ने भी महसूस किया अपनी शीतनिद्रा से उनके अचानक जग जाने की वजह क्या है? लोगों ने रेखांकित किया कि जिस किसान आन्दोलन को लेकर वह एक ही जुबां में टवीट कर रहे हैं, उसके सामंजस्यपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं, वह दो माह से अधिक वक्त से दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है, किसान हजारां-लाखों की तादाद में दिल्ली की सरहदों पर विगत दो महिनों से आसमान के नीचे कंपकंपाती टंड में रह रहे हैं, जहां लगभग डेढ़ सौ के करीब किसान टंड से या अन्य बीमारी

से मरे भी हैं, लेकिन इस दौरान इनमें से किसी का भी दिल नहीं पसीजा और उस वक्त इनमें से किसी ने भी एक लफज भी नहीं कहा था, सब गया ऐसे रहे कि कुछ हुआ न हो! निश्चित तौर पर इन्हीं क्षेत्रों से ऐसी तापसी पन्नी जैसी आवाजें भी थीं जिन्होंने इन सेलेब्रिटीज के इस श्रीद्विहीन रवैयेश की आलोचना की और साफ-साफ कहा कि अगर एक टवीट उनकी एकता को बाधित करता है, एक जोक आपकी आस्था को चोट पहुंचाता है या एक शो आप के धार्मिक विश्वासों को खरोंच पहुंचाता है तो इसका



मतलब यही है कि आप अपनी मूल्य प्रणाली को मजबूत करें न कि दूसरों के लिए श्रृंखलाएं की भूमिका में आ जाएं। तापसी पन्नी की चेतावनी सर आंखों पर लेकिन इन दिनों आलम यह है कि अधिकतर सेलेब्रिटीज ने अपना पक्ष चुन लिया है, उन्हें शायद इस बात से भी गुरेज नहीं है कि पब्लिक में उनकी क्या छवि बन रही है? आल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा की इस बात से क्या सहमत हुआ जा सकता है कि उनके इस आचरण की तुलना सर्कस के बंदर के साथ की जा सकती है। अगर हम बारीकी से पड़ताल करें तो पाएंगे व्यापक सामाजिक मसलों पर चुप्पी बनाए रखना हमारे अधिकतर सेलेब्रिटीज का- फिर वह चाहे बॉलीवुड के हों, खेल जगत के हों या क्रिकेट की दुनिया के हों- की पहचान बन गया है।

अधिकतर लोग वैसी ही बात बोलना पसंद करते हैं जो हुकूमत को पसंद हो। क्या यह कहना मुनासिब होगा कि उन्हें यह डर सताता रहता है कि ऐसी कोई बात बोलेंगे जो हुकूमत को नागवार गुजरती हो, तो वह उनके कैरियर को बाधित कर सकती है। वह उन्हीं चीजों के बारे में स्टेपण लेते हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं- उदाहरण के लिए स्वच्छता के लिए या नारी सशक्तिकरण आदि के लिए। कुछ समय पहले का एक उदाहरण देना यहां समीचीन होगा। उन दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा में

अधिक सी खाली होगी। यह वही समय था जब वह स्वच्छ भारत अभियान के लिए मध्य प्रदेश के एक सुदूर इलाके में टायलेट खोदते नजर आएं थे और बाद में पता चला कि इसी थीम पर केन्द्रित उनकी एक फिल्म भी आनेवाली है जिसका शीर्षक है टायलेट- एक प्रेम कथा। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने से जैसे मानवीय कदम के लिए कोई कुछ करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बालीवुड के इन दोनों सितारों के इस बेहद मानवीय कदम में एक दिलचस्प समानता उन दिनों भी रेखांकित की थी, जहां उन्होंने केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के मृतक सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, वहीं उन्हीं यह जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि उसी क्षेत्र में आदिवासियों की विशाल आबादी भी रहती है और उसके साथ ही रही ज्वादतियों का मसला खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रडार पर रहता है, आदिवासियों के साथ ही

आज भी मौजू जान पड़ती है। ए स्टार्स रिश्तल स्टूडिप्स शीर्षक अपने लेख में (टाईम्स आफ इण्डिया) अर्चना खरे ने पूछा था कि श्यालीवुड हमेशा हालीवुड से प्रभावित दिखता है, निजी शैलियों से लेकर फिल्म की स्ट्रिक्टस तक सभी में उसकी नकल उतारता है, फिर ऐसी क्या बात है जो हमारे यहां के कलाकारों को स्टेटसमें न ओ गुआ बाने से रोकती है जो मंच पर खड़े होकर साम्राज्यिक हिंसा का विरोध करें, गरीबी, जातिप्रथा, भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज बुलन्द करें। कुछ साल पहले हालीवुड के सबसे चर्चित नायकों में से एक जार्ज क्लूनो की एक तस्वीर दुनिया भर के अ-खबारों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्हें हथकड़ी डाले दिखाया गया था। यह किसी फिल्म की शूटिंग का दृश्य नहीं था, वह खुद सूडान दूतावास के सामने गिरफ्तार हुए थे, जब वह वॉशिंगटन स्थित सूडान के दूतावास के समने कई अन्यो के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। याद रहे कि वह समय था जब जार्ज क्लूनो सूडान की मानवीय त्रासदी, वहां भूखमरी की बढतर होती स्थिति के बारे में बोलते रह रहे थे। मगर किसी मसले पर स्टैपण लेकर खड़े होने वालों में क्लूनो अकेले नहीं रहे हैं। वहां के कई बड़े कलाकार तानाशाहों के विरोध में, मुहों को रेखांकित करने में, जरूरतमन्नों को मदद करने में समय-समय पर आगे आते रहते हैं। हालीवुड ही नहीं आते विभिन्न खोलों के अग्रणी खिलाड़ियों की ऐसी फेहरिस्त है जिन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का साहस बार-बार किया और उसके लिए जोखिम उठाए। द ग्रेटेस्ट मुहम्मद अली की मृत्यु पर यही बात रेखांकित की गई थी कि किस तरह वह न केवल महान खिलाड़ी थे बल्कि अभिव्यक्ति के तमाम खतरों को उठाने के लिए तैयार महान शख्सियत भी थे। क्या हमारे महानायक एवं सम्राट उनसे कुछ सीख लेंगे?

देश मांग रहा किसान का बजट

डॉ. भरत सुनडुगवाला आगामी वर्ष के बजट को पेश करते समय वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीते 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन साथ-साथ सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था को निरस्त भी करना चाहती है। इसलिए देखा होगा कि वर्तमान व्यवस्था में क्या खामियां हैं। पहली खामी यह है कि आज विश्व में कृषि उत्पादों के मूल्य निरंतर गिरते जा रहे हैं क्योंकि नई तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि जनसंख्या में उसी अनुपात में वृद्धि न होने के कारण खाद्यानों की मांग की तुलना में कम वृद्धि हो रही है। खाद्यानों की सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है जबकि मांग कम बढ़ रही है। दाम गिरते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में खाद्यानों का उत्पादन कराए तो उस भण्डार के निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खाद्यानों का निर्यात संभव नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ समर्थन मूल्य का एक उद्देश्य यह है कि देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे। समर्थन मूल्य व्यवस्था के माध्यम से किसानों को खाद्यानों के उचित मूल्य निरंतर मिलते रहते हैं और वे उनका पर्याप्त उत्पादन करते रहते हैं जिसका परिणाम है कि साठ के दशक के बाद अपने देश में अकाल

नहीं पड़ा है। इसलिए खाद्य सुरक्षा के लिए समर्थन मूल्य की संभवतः अनिवार्यता नहीं रह गई है। समर्थन मूल्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण भी सरकार को भारी घाटा लगता है। लेकिन यदि समर्थन मूल्य व्यवस्था को हम पूर्णतया निरस्त कर देते हैं तो दो दुष्प्रभाव सामने आते हैं। एक यह कि



किसानों की आय में गिरावट आएगी जिसके फलस्वरूप हम आज किसानों का आन्दोलन देख रहे हैं। दूसरा यह कि देश में खाद्यानों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आ सकते हैं जिसके कारण देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जैसे किसी वर्ष यदि गेहूं के दाम बहुत कम हो गये तो अगले वर्ष किसान गेहूं का उत्पादन कम कर देते हैं और जिसके कारण आने वाले वर्ष में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जाता है। पहला विषय किसान की आय का है। इस दिशा में वर्ष 2016 में सरकार

ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी स्थापित की थी। कमेटी की पहली संस्तुति थी कि किसान की उत्पादकता बढ़ाई जाए। सहज समझ आता है कि यदि किसान किसी भूमि पर एक क्विंटल के स्थान पर 2 क्विंटल गेहूं उत्पादित करे तो उसकी आय सहज ही 2 हजार रुपये से बढ़कर 4 हजार रुपये हो जाएगी। लेकिन यह तब होगा जब गेहूं का दाम 20 रुपया प्रति किलो बना रहे। जैसा ऊपर बताया गया है कि जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो कृषि उत्पादों के दाम में भारी गिरावट आती है। यही कारण था कि कुछ वर्ष पूर्व गुजरात के पालनपुर के आलू के किसानों ने अपनी आलू की फसल को सड़कों पर फेंक दिया था। उन्हें आलू खोदकर मंटी तक पहुंचाने का भी खर्च भी मंडी से नहीं मिल रहा था। समिति ने इस बात को नजरअंदाज किया है कि उत्पादकता बढ़ाने मात्र से किसान की आय नहीं बढ़ जाती

है। उसके साथ दाम को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। परन्तु यदि दाम को समर्थन मूल्य को दाम के माध्यम से बढ़ा कर रखा जाता है तो जैसा ऊपर बताया गया है कि खाद्यान्नों के भंडारण और निस्तारण की समस्या सामने आ जाती है। इसलिए कमेटी नाकाम है। सरकार को सामान्य खाद्यान्नों के स्थान पर किसान को उच्च कीमत की फसलों के उत्पादन की तरफ प्रेरित करना चाहिए। आज अफ्रीका के ट्यूनीशिया देश में जैतून, ब्राजील में काफी और हेजल नट, अमेरिका में अखरोट और सेब, फ्रांस में अंगूर, नीदरलैंड में ट्यूलिप के फूल, मलेशिया में रबड़, पाकिस्तान में अमरुद-इस प्रकार की विशेष फसलों के उत्पादन से इन देशों ने विश्व बाजार में अपना स्थान बनाया है। हमने भी मंडान में रेशम, भुसावल में केले, नासिक में प्याज, जोधपुर में लाल मिर्च और असम में अनानास आदि फसलों के उत्पादन में विशेष उच्छ्रुष्टता हासिल की है। अपना देश जलवायु की दृष्टि से सम्पन्न है। देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष भर विविध जलवायु उपलब्ध है। हर क्षेत्र के अनुकूल जो उच्च कीमत की फसलें उत्पादित हो सकती हैं उनका

अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के मानकों के अनुसार उत्पादन कराकर इनके निर्यात की व्यवस्था करनी चाहिए। तब जिस प्रकार नीदरलैंड में ट्यूलिप फूल की खेती करके सम्पूर्ण विश्व को इनका निर्यात किया जाता है उस प्रकार हम अयोध्या से लोबिया, बिहार से परवल, बंगाल से चिनिया केले, रत्नागिरी से हापूस आम इत्यादि विशेष फसलों का निर्यात करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि एनजीओ अथवा कॉर्पोरेट घरानों को हर जिले को विशेष उत्पादों पर रिसर्च करने, उनका किसानों के बीच प्रसार करने, उनका उत्पादन कराने और फिर उनका निर्यात करने का सम्मिलित ठेका दे। ऐसा करने से हमारे किसान की आय वास्तव में बढ़ जायेगी और सामर्थ्य मूल्य व्यवस्था को बनाये रखने की जरूरत नहीं रह जायेगी। इस बजट में सरकार ने हाईवे, बंदरगाह आदि बुनियादी संरचना में निवेश में भारी वृद्धि की है। वह भी जरूरी है। परन्तु कृषि उत्पादन के मानकों के अनुसार उत्पादन की रिसर्च में निवेश नहीं किया है। इसलिए कृषि की समस्या नि-फलहाल पूर्ववत् बनी रहने की संभावना बनी रहती है। अतएव किसानों की समर्थन मूल्य की मांग इस हद तक जायज है कि जब तक इन फसलों का उत्पादन और निर्यात की व्यवस्था से उनकी आय में दुगुनी वृद्धि न हो जाए तब तक वर्तमान व्यवस्था को बनाये

रखा जाए। दूसरा विषय खाद्य सुरक्षा का है। इसका उपाय यह था कि सरकार को फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया को फूड ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया में परिवर्तित कर देना चाहिए। जैसे सरकार ने मिनिरल एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन बना रखा है। यह सार्वजनिक इकाई धातुओं की खरीद और बेच करती रहती है। इसी प्रकार फूड ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से सरकार को चाहिए कि जब देश में खाद्यान्नों के दाम विशेष परिस्थिति में बहुत नीचे हो तो फूड ट्रेडिंग कारपोरेशन उन खाद्यान्नों को खरीदे और दाम को बढ़ाए। इसके विपरीत जब खाद्यान्नों के दाम अधिक बढ़ जाएं तो फूड ट्रेडिंग कारपोरेशन अपने भंडारण को खरीदे और दाम को बढ़ाए। इस कारपोरेशन द्वारा व्यापारियों से भविष्य के ठेके किये जाएं जिससे कि व्यापारी स्वयं किसान से खाद्यान्नों खरीदकर उचित मण्डारण करें और उचित समय पर फूड कारपोरेशन को उपलब्ध करा दें। जैसे गेहूं की फसल अप्रैल में होती है तो फूड ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा अक्टूबर में सप्लाई के ठेके किये जा सकते हैं। ऐसा करने से जो भण्डारण इत्यादि में फूड कारपोरेशन अकुशलता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे देश को निजात मिल जायेगी और देश की खाद्य सुरक्षा भी स्थापित रहेगी।



अंकल राजीव कपूर के निधन पर बोलीं करीना कपूर- दूटे पर मजबूत हैं, शेयर किया यह संदेश

कपूर परिवार की बेटी करीना कपूर खान ने अपने अंकल राजीव कपूर के निधन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर दादा राजकपूर, पिता रणधीर कपूर, अंकल ऋषि कपूर और राजीव कपूर की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राज कपूर अपने तीनों बेटों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए करीना कपूर ने कैप्शन में लिखा है, शूट लेकिन मजबूत। इसका साथ ही करीना कपूर ने एक ब्रोकन हार्ट की इमोजी शेयर की है। मंगलवार को राजीव कपूर को हार्ट अटैक के बाद बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने पर मौत घोषित कर दिया। सबसे पहले राजीव कपूर की भाभी नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर शेयर कर उनकी मौत की पुष्टि की थी। नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर राम तेरी गंगा मैली के एक्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था। इसके कुछ देर बाद ही कपूर फैमिली कई लोगों को चेंबर स्थित राजीव कपूर के घर के बाहर देखा गया। इन सितारों में रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, अरमान जैन, जैक कपूर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर और नीतू कपूर को देखा गया। करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर और मां बबीता कपूर के साथ पहुंचीं। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में चल रही एक्ट्रेस करीना कपूर खान सफेद सूट और सलवार में बेहद भावुक नजर आ रही थीं। कपूर खानदान के लिए राजीव की मौत बड़ा सदमा है। बीते साल ही फैमिली ने ऋषि कपूर और रितु नंदा को अंतिम विदाई दी थी। इस तरह महज एक साल में ही परिवार के तीन लोगों का निधन हो गया है। लंबे समय बाद राजीव कपूर ने बड़े पद पर वापसी की थी और पिछले दिनों तुलसीदास जूनियर मूवी की शूटिंग पूरी की थी। हालांकि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उनका निधन हो गया। इस फिल्म में वह संजय दत्त और दलीप ताहिल के साथ नजर आने वाले हैं।

काजल अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर किया बिमारी का खुलासा

साउथ इंडियन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करती रहती हैं। अब उन्होंने सोमवार 8 फरवरी को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करती रहती हैं। अब उन्होंने सोमवार 8 फरवरी को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने



जिसमें उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें छोटी सी उम्र में डेयरी उत्पादों और चॉकलेट से दूर रहने के लिए कहा था। जो एक छोटी बच्ची के रूप में काफी मुश्किल काम था। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'जब मुझे अपने ब्रॉन्किअल अस्थमा के बारे में पता चला, तब मैं 5 साल की थी। मुझे याद है उस वक्त मुझे कई चीजें जैसे डेयरी उत्पादों और चॉकलेट खाने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया। जो एक छोटे बच्चे के लिए काफी मुश्किल काम है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे चीजें समझ में आने लगीं। वहीं जब मैं कहीं घूमने जाती या ट्रिप जाती तो अक्सर मेरा सामना सर्दी, धूल, धुएं जैसी चीजों से होता था और इस वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी।' 'जब मुझे अस्थमा के लक्षण सामने आते थे तो मेरी सांस फूलने लगती थी। तो मैंने इससे बचने के लिए इन्हेलर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया और मैंने लगभग अपनी स्थिति में काफी बदलाव देखा। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, निश्चित रूप से लोग मुझसे अजीब सवाल करते हैं। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्हें इनहेलर की काफी जरूरत है, लेकिन सामाजिक डर की वजह से लोग इन्हेलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं।' उन्होंने ने आगे लिखा, 'निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से इन्हेलर्स का उपयोग करने में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। बल्कि जो लोग इस बिमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना चाहिए और मैं देश को ये महसूस कराने में मदद करने के लिए, आज से रैललमेज्ज्पदीसमते और मैं अपने दोस्तों, फैंस, परिवार से अपील करती हूँ कि इन्हेलर्स के बारे में लोगों को बताएं और जागरूक करें।'

आलिया भट्ट से इस वजह से खुश हैं संजय लीला भंसाली, ईद पर रिलीज हो सकती है फिल्म

संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही आलिया भट्ट स्टार फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' लंबे वक्त से काफी चर्चा में हैं। अब फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग खत्म होने वाली है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही आलिया भट्ट स्टार फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' लंबे वक्त से काफी चर्चा में है। अब फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग खत्म होने वाली है। स्पोर्ट्सबॉय की खबर के मुताबिक फिलहाल भंसाली ने कुछ दिन का ब्रेक लिया है, लेकिन इस हफ्ते फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं खबर के मुताबिक भंसाली फिल्म को इसी साल ईद के मौक पर रिलीज करने का मन बना रहे हैं। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'आलिया लगातार

फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की। इसलिए संजय लीला भंसाली ने उन्हें कुछ दिन ब्रेक लेने की सलाह दी। क्योंकि फिल्म की शूटिंग अब लगभग खत्म होने वाली है। भंसाली, आलिया के काम और काम के प्रति उनकी लगन देखकर बहुत खुश हैं। आलिया अपने टाइम से एक घंटा पहले ही सेट पर पहुंच जाती हैं और टाइम पर काम शुरू कर देती हैं। अब संजय लीला भंसाली फिल्म को 2021 ईद पर रिलीज करने का मन करा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों आलिया लगातार शूटिंग करते-करते इतनी थक गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। हालांकि आलिया हॉस्पिटल में ज्यादा देर नहीं रुकीं। उन्होंने वहां कुछ देर रेस्ट किया और फिर डिस्चार्ज हो गईं। अब आलिया


शूटिंग से ब्रेक लेकर कुछ वक्त के लिए मालदीव गई हुई हैं। आलिया अपनी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर और अनुष्का कपूर के साथ मालदीव पहुंची हुई हैं। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर मालदीव वकेशन की कुछ फोटोज भी शेयर की हैं जिनमें वो दोस्तों के साथ चिल करती दिख रही हैं। आलिया ने मालदीव के बीच से अपनी बिकिनी फोटोज शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। ऋषि के बाद राजीव कपूर का जाना कपूर परिवार के

लिए बड़ा सदमा, एक दशक में इतने सदस्य खो चुकी है कपूर फैमिली वर्क फ्रंट के बात करें तो आलिया शगूबाई काठियावाड़ी के अलावा शतखत शबुद्दाम्ना और शरारत आर आर में भी नजर आने वाली हैं।

ग्लैमरस अंदाज में नजर आई सनी लियोनी



बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी इंस्टाग्राम पर किसी सेंशंसन से कम नहीं हैं। सनी लियोनी आए दिन अपनी तस्वीरों से फैंस का चोंच चुराती रहती हैं। एक बार फिर सनी लियोनी ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ साझा की हैं। तो आइए आपको दिखाते सनी का ये नया अंदाज।



चेहरे पर सामान्य दिखने वाले ये संकेत कर सकते हैं बीमार, न करें नजरअंदाज

कई बार हमारी बॉडी कुछ ऐसे संकेत देती है जिन्हें हम अकसर नजरअंदाज कर देते हैं। होंठों का सूखना, आंखें पीली होना इन लक्षणों की तरफ हम कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं देते हैं लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना हमारी सेहत के लिए ही हानिकारक हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताएंगे कि अगर आपके चेहरे पर यह लक्षण दिखें तो आप इन्हें इग्नोर न करें बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इन लक्षणों को आप चाहे सामान्य समझते होंगे लेकिन यह सामान्य नहीं हो सकते हैं।

1. फटे होठ

होंठों का फट जाना और रूखे होठों की समस्या आज हर किसी को है। लेकिन जब भी यह समस्या होती है तो लड़कियां क्रीम या फिर बाजारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगती हैं लेकिन होंठों का सूखना और होंठों का फटना किसी मुसीबत की तरफ इशारा भी हो सकता है।

किस तरफ इशारा करता है यह संकेत

फेट हुए होठ होना या फिर सूखे होठे डिहाइड्रेशन की तरफ इशारा करते हैं। जी हां...इस स्थिति में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए आप भरपूर पानी पीएं और अगर ज्यादा पानी पीने वालों को भी यह समस्या होती है तो आप बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करें।

2. चेहरे पर काले तिल होना

चेहरे पर काले और गहरे रंग के मोल्स भी कई तरह की बीमारियों की ओर संकेत करते हैं हालांकि इससे शरीर को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता है लेकिन अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धाबे हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए।

बदलते मोल्स की तरफ दें ध्यान

आपको बताते हैं कि आपको किन स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

अगर तो आपका मोल नुकीला और तीखा है

या फिर वह काफी बड़ा है

अगर कुछ हफ्तों से यह बदलता जा रहा है

अगर आपको मोल्स में यह बदलाव देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से इसकी जांच करवाएं।

3. आंखों का पीला होना

आंखों का पीला होना या फिर आपकी स्किन की पीला होना भी खतरे की घंटी है। अगर आपके चेहरे पर पीलापन है या फिर आपकी आंखें पीली हैं तो यह लिवर में होने वाली बीमारियों की तरफ इशारा करती हैं। आपको पीलिया या जॉन्डिस या फिर लिवर से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसलिए आप इन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें।

4. पलकों का लटकना

आमतौर पर पलकों का लटकना बुढ़ापे की निशानी माना जाता है लेकिन यह गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है जैसे कि आपको स्ट्रोक या फिर ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो अगर पलकों के लटकने के साथ-साथ आपकी आवाज में भी लड़खड़ाहट हो रही है तो यह पैरालिसिस का इशारा भी हो सकता है।

5. पुतलियों के पास छल्ले पड़ना

अगर आपकी पुतलियों के आस-पास सफेद छल्ले पड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका दिल स्वस्थ नहीं है। पलकों के आस-पास या उसकी त्वचा के नीचे सफेद वसा जमा हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि ये भी गंभीर दिल की बीमारियों का संकेत हो सकता है।

भारतीय महिलाओं के गहनों का सेहत से गहरा कनेक्शन, पीरियड्स से फर्टिलिटी में फायदेमंद



हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार काफी मायने रखता है, खासकर नई-नवेली दुल्हन के लिए। माथे के सिंदूर- बिंदी से लेकर पैरों में पायल पहनना शादीशुदा होने का प्रतीक मानी जाती है। वहीं, धार्मिक महत्व से शादी के बाद मंगलसूत्र, बिछिया, पायल पहनना काफी शुभ होता है। वैज्ञानिक नजरिए से भी गहनों पहनना महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि गहनों उनकी खूबसूरती बढ़ाने के साथ कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं।

चलिए आपको बताते हैं कि कौन-सा गहना पहनने से महिलाओं को क्या-फायदा मिलता है...

मंगलसूत्र

मंगलसूत्र सिर्फ शादीशुदा होने की निशानी ही नहीं है बल्कि इसके काले मोटी महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। वहीं, शोध के मुताबिक, मंगलसूत्र से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है।

ईयररिंग्स

कानों की खूबसूरती बढ़ाने के अलावा आयुर्वेद और लगभग

हर पुरानी चिकित्सा पद्धति में कानछेदन और ईयररिंग्स को सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। इससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता और मासिक चक्र बेहतर होता है। साथ ही इससे शरीर की ऊर्जा भी कंट्रोल में रहती है।

अंगूठी

शादी से पहले सगाई के दौरान कपल एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हालांकि आजकल अंगूठी पहनना फैशन भी बन गया है। सोने, तांबे या चांदी की अंगूठी में ऐसे एंजाइम होते हैं जो शरीर के कुछ प्वाइंट्स को ट्रिगर करते हैं। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और गठिया जैसे रोग भी दूर रहते हैं।

सिंदूर

वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सिंदूर में मौजूद पारा मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है। यह आपको तनावमुक्त रखने के साथ हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा सिंदूर लगाने से एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

नाक की लॉंग या नथ

शोध के मुताबिक, नथ पहनने से पीरियड्स से संबंधी परेशानियां दूर रहती हैं। इसके अलावा इससे श्वसन तंत्र भी सुचारु रूप से काम करता है, जिससे आप कई समस्याओं से बची रहती हैं।

चूड़ियां

सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि आजकल कुंवारी लड़कियां भी हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। इससे हाथों के कुछ प्वाइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ना सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बल्कि हार्मोन्स भी संतुलित होते हैं।

बिंदी

माथे पर लगी सिंदूर की बिंदी महिलाएं आज चक्र को सक्रिय करती है। इससे ना शरीर ऊर्जावान बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। साथ ही इससे दिमाग भी तेज होता है।

कमरबंद

महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने के साथ कमरबंद मोटापा कम करता है। इससे ना सिर्फ फिगर मेंटेन रहता है बल्कि पीरियड्स व प्रेगनेंसी में होने वाले सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है।

अनेक रोगों की एक दवा बिच्छू बूटी, जानिए इसके 8 फायदे

से बने कैप्सूल भी ले सकते हैं।

अब जानिए इसके फायदे...

1. लिवर और दिल को रखे स्वस्थ

यह लिवर को डिटॉक्स करने के साथ इन्फेक्शन से भी बचाती है। साथ ही इसमें मौजूद इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट तत्व दिल की बीमारियों व हार्ट अटैक का खतरा कम करता है।

2. प्रोस्टेट के लिए है फायदे

प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, जिसके जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर कैंसर का खतरा रहता है। मगर, बिच्छू बूटी इसे बढ़ने से रोकने में मददगार है।

3. बुखार और एलर्जी को करे ठीक

बदलते मौसम में अक्सर वायरल बुखार, सर्दी-खांसी, नाक बहना, व जुकाम और एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में बिच्छू बूटी का काढ़ा बनाकर पीना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

4. अस्थमा में फायदेमंद

इसमें एंटी-अस्थमेटिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो अस्थमा में आराम पहुंचाते हैं। ऐसे में अस्थमा रोगियों के लिए

बिच्छू बूटी काफी कारगर साबित हो सकती है।

5. वुमन प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज
पीरियड्स खुलकर नहीं आ रहे, पीसीओडी और प्रेगनेंसी में होने वाली दिक्कत में भी इसका सेवन कारगर साबित हो सकता है।

6. ब्लड प्रेशर कंट्रोल
ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई बीमारियों का खतरा रहता है। वहीं, इससे दिल को भी नुकसान होता है। मगर, इसमें मौजूद एंटी-हाइपरटेंसिव गुण ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करते हैं।

7. ग्लोइंग स्किन

बिच्छू बूटी का पेस्ट जलन, खुजली, रेशेज, एक्जिमा और दाद जैसी समस्याओं में काम आ सकता है। इसके अलावा यह सूजन और घाव भरने में भी असरदार है। मगर, इसके लिए पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

8. बालों के लिए गुणकारी

हेयरफॉल, रूखे और बेजान बालों से छुटकारा पाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे डैंड्रफ और गंजपन से भी छुटकारा मिलता है।



आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी चीजों का जिक्र है जो सेहत की छोटी-मोटी बीमारियों का हल है। उन्हीं में एक है बिच्छू बूटी यानि नेटल लीफ, जिसे वैज्ञानिक तौर पर भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फाइबर, कार्ब्स, सेलेनियम, थायमिन, विटामिनस होते हैं, जो दवाइयों की तरह काम करते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिच्छू बूटी किन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए वरदान साबित होती है...

सबसे पहले जानिए कैसे करें इस्तेमाल

1. बिच्छू बूटी को छूने से सिहरन हो सकती है इसलिए इसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह धोकर नमक वाले पानी में उबाल लें। इसके बाद इसे सलाद के रूप में खाएं।

2. बिच्छू बूटी की चाय या काढ़ा भी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप बिच्छू की पत्तियों

डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हैं ये 4 वर्कआउट लेकिन सुबह करेंगे तो नहीं होगा फायदा

डायबिटीज यानि जिन्हें शुगर की समस्या होती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो इस बीमारी के साथ-साथ मोटापे से भी परेशान होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वजन इससे एकदम से ही कम हो जाता है लेकिन डायबिटीज के मरीजों को ऐसे समय में अपनी सेहत का और अपने वजन का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करते या फिर सुबह वर्कआउट करते हैं लेकिन अगर आप सुबह या रात को सैर करते हैं तो इससे आपको फायदा कम होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप के लिए कौन सा समय बेहतर है।

रिसर्च में सामने आई यह बात हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानें तो अगर डायबिटीज के मरीज दोपहर में वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा और यह उनके शरीर के लिए बेहतर भी होगा। खासकर जिन्हें टाइप-2 डायबिटीज है उन्हें दोपहर में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए इससे आपमें शरीर में ज्यादा सुधार देखने को मिलेंगे।

दोपहर के समय वर्कआउट करेंगे तो होगा फायदा
रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि दोपहर में एक्सरसाइज करने से आपकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। इसलिए आपको दोपहर में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए।



तो चलिए अब आपको कुछ ऐसे वर्कआउट के बारे में बताते हैं जिन्हें डायबिटीज के मरीज कर सकते हैं और उन्हें इससे काफी लाभ भी होंगे।

1. वॉकिंग करें

सेहत को हेल्दी रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप वॉकिंग करें। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो आप घर की छत पर या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो आप लंच टाइम के बाद थोड़ी देर वॉकिंग करें इससे आपका वजन भी कम होगा और साथ ही आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी।

2. साइक्लिंग है बेस्ट

साइक्लिंग तो सभी एक्सरसाइज से बेस्ट एक्सरसाइज है। साइक्लिंग करने से आपके शरीर में एक्टिवनेस बनी रहती है। इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है। इसलिए अगर आप वॉकिंग नहीं करना चाहते तो आप साइक्लिंग करें। बाजार जा

रहे हैं तो कार या बाइक से नहीं बल्कि साइक्लिंग करते हुए जाएं।

3. योगा करें

योगा तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिन्हें कोई बीमारी नहीं है क्योंकि योग से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे नीड न आने की समस्या दूर होती है तो वहीं ब्लड प्रेशर में भी सुधार होता है। आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है।

4. जुम्बा एक्टिविटी करें

जुम्बा एक्टिविटी भी आपके लिए बेहतर रहेगी। इस पर हुई एक रिसर्च की मानें तो अगर आप अपनी रूटीन में एरोबिक डांस या फिर जुम्बा एक्टिविटी को एड करते हैं तो इससे आपके शरीर को काफी फायदे होते हैं।

इसके साथ-साथ आप अपना भोजन भी सही रखें। आप अपनी डाइट में यह चीजें एड करें।

पपीता, चेरीज, तरबूज, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, कद्दू के बीज भी डायबिटीज के मरीजों को खाना चाहिए

चावल का दलिया, दूध और केला, हल्का बटर लगा 2 आटा ब्रेड

दालें खाएं, हरी सब्जियां खाएं

जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम व सीओ पहुंचे पिपरा देवराज



अमित रेखा—दिनेश गुप्ता भटनी—देवरिया। उत्तराखंड के तपोवन में हुई त्रासदी में भटनी क्षेत्र के पिपरा देवराज गांव निवासी संतोष यादव लापता हो गया है। वह निर्माणधीन डैम पर वेल्डर के रूप में कार्यरत था दो दिनों से युवक का मोबाइल बंद होने से पत्नी ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी जिलाधिकारी के

निर्देश पर एसडीएम सलेमपुर ओमप्रकाश बरनवाल और सीओ भाटपाररानी पंचमलाल यादव ने घर पहुंचकर जानकारी ली भटनी क्षेत्र के पिपरा देवराज गांव निवासी संतोष यादव उत्तराखंड के पीपल कोटी तपोवन स्थित एक कंपनी में वेल्डर के तौर पर कार्यरत है। पत्नी सुमन देवी ने बताया कि दो दिन पूर्व टीवी पर

त्रासदी की जानकारी होने पर उसने पति को फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। दो दिनों से कोई जानकारी नहीं मिलने से परेशान पत्नी सुमन ने इसकी जानकारी जिलाधिकारी अमित किशोर को दी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एसडीएम सलेमपुर और सीओ मंगलवार को पिपरा देवराज पहुंचे।

रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान समारोह सम्पन्न हुआ

अमित रेखा—मोला यादव विकास कंचनपुर तरकुलवा—देवरिया। देवरिया जिले के



तरकुलवा विकास खण्ड के दूबे टोला जामा मस्जिद के प्रांगण में रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य राम सुन्दर दास निषाद व पूर्व विधायिका गजाला लारी ने कहा की पूर्व सैनिकों का सम्मान

करना हमारा परम कर्तव्य है क्योंकि यह सैनिक लोग अपना गांव व परिवार को छोड़कर देश के शरहद पर तैनात हो कर सुदामा कुशवाहा, तवक्कल खा सौं दागर, राजेंद्र चौहान, जहरुददीन सिद्दीकी, हातिम भाई को सम्मानित किया। वही कार्यक्रम के आयोजक आर्मी कमांडो मु तेजारात सिद्दीकी के द्वारा सभी अतिथियों का अभार व्यक्त किया गया कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष रामअधर यादव वरिष्ठ नेता चौधरी बेचू लाल यादव रबूददिन अंसारी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष रणवीर यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओमप्रकाश यादव तरकुलवा इस्माइल अंसारी सत्यप्रकाश यादव मंजूर हसन विवेक सिंह पटेल आदी ने सम्बोधित किया इस अवसर मौजूद उदयभान यादव प्रदीप, समर, इबरा, अहमद, मुराद अहमद, मुहम्मद फतेह निरज कुशवाहा हजरत सिद्दीकी मु हकीक सिद्दीकी एवं समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

श्री बजरंग सेना ग्रामीण प्रतियोगिता का फाइनल मैच उनवल बनाम हरिहरपुर खेला गया

अमित रेखा शक्ति ओम सिंह खजनी गोरखपुर। खजनी क्षेत्र के शिव मंदिर क्रिकेट क्लब गोपालपुर की पावन धरती पर आज उनवल बनाम हरिहर के बीच खेला गया



हरिहरपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 81 रन का टारगेट खड़ा किया इस मैच के मुख्य अतिथि रहे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जगदीश चोरसिया, वार्ड नंबर 33 के भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी विदुर मणि सिंह, युवा नेता योगेंद्र सिंह सेक्टर प्रमुख नर्वदेश्वर सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर के टीचर दिलीप कुमार, कोटेदार अविनाश सिंह, प्रज्ञा मोबाइल सेंटर खजनी प्रदीप सिंह मंच पर मौजूद रहे सभी अतिथियों के स्वागत के लिए कमेटी के अध्यक्ष कमलेश सिंह अजीत सिंह, अतुल सिंह, संयोजक के रूप में गोविंद सिंह कन्हैया सिंह सोनू पांडे शिवम पांडे, पवन सिंह बंटी सिंह रहे इस कैनवस टूर्नामेंट के प्रभावी रहे श्री बजरंग सेना के प्रिंस सिंह नेता और उनके साथी मैच में उनवल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में 1 बाद विकेट के नुकसान पर मैच को जीत लिया इसके बाद खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज विजेता शील्ड, उप विजेता शील्ड, मैडल सहित तमाम पुरस्कारों से उनवल और हरिहरपुर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया आज का दिन शिव मंदिर समिति के नाम से इतिहास में भी याद किया जाएगा जिसके तत्वाधान में श्री बजरंग सेना ग्रामीण प्रतियोगिता सफलता पूर्वक संपन्न हुआ इस मैच को कराने व सफल बनाने में सबसे ज्यादा योगदान गोपालपुर के बीजेपी नेता रत्नेश पांडे का रहा।

कोतवाली, रुद्रपुर, मदनपुर और भलुअनी से गाँव काटकर नया थाना प्रस्तावित

अमित रेखा ब्यूरो देवरिया। जनपद देवरिया में थाना कोतवाली, रुद्रपुर, मदनपुर एवं थाना भलुअनी का क्षेत्रफल बढ़ा होने के फलस्वरूप इन थानों से गाँवों को काटकर नया थाना जिसका नाम सुरौली होगा, का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस नये प्रस्तावित थाना सुरौली में कुल 65 गाँव होंगे, जिसमें 21 गाँव थाना कोतवाली, 17 गाँव थाना रुद्रपुर, 15 गाँव थाना मदनपुर व 12 गाँव थाना भलुअनी के होंगे। थाना कोतवाली के जिन गाँव को नये थाने में सम्मिलित किया जाएगा। उनके नाम इस प्रकार हैं— 1—पटखौली 2—दुबोली 3—करोली 4—अम्मा उप अमवा 5—कुकिरिहा 6—बेलवा 7—तिवई 8—कोईलगढ़हा 9—उसरा बाजार 10—जंगल ठकुरही 11—जोकहा खास 12—जोकहा दह 13—तरैनी 14—नकटापार 15—परसा जंगल। थाना मदनपुर के जिन गाँवों को नये प्रस्तावित थाने में सम्मिलित किया जाएगा उनके नाम इस प्रकार हैं— 1—पड़री अनरिद्ध 2—ठाकुर देवा 3—जड़ू परसिया 4—बरडीहादल 5—गोलऊथा 6—मरवाटिया राजा 7—भरोली 8—कन्होली 9—पाण्डे पकड़ी(राजपुर) 10—बरडीहा अली 11—नगवा 12—पकड़ी बाजार 13—बासुदेव चक्र 14—हिरामन परसिया 15—अहिरोली बघेल 16—डम्बरपुर 17—कन्धरा औसान थाना भलुअनी के जिन गाँवों को नये प्रस्तावित थाने में सम्मिलित किया जाएगा उनके नाम इस प्रकार हैं— 1—सुरौली 2—पैकोली 3—विशुनपुर 4—मुण्डेरा 5—भट्ट जमुआव 6—रोहुआर विशुनपुर 7—सिसवापाण्डे 8—सुकई परसिया 9—नकडिहा 10—भेड़ापाकड खुर्द 11—भेड़ापाकड कला 12—नईखास पुलिस अधीक्षक डॉ० श्रीपति मिश्र द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस सम्बन्ध में लोगों से सुझाव मांगे गये हैं कि वे यदि किसी गाँव को प्रस्तावित थाने में जुड़वाना चाहते हैं या पुराने थाने में रहने का सुझाव देना चाहते हैं तो वे अपना सुझाव कारण सहित 07 दिवस के अन्दर पुलिस कार्यालय के प्रधान लिपिक को दे सकते हैं।

लंबे समय से बंद स्कूल खुले, बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचे

लखनऊ, (यूनएस)। उत्तर प्रदेश में कक्षा छह से आठ तक के सभी स्कूल 10 फरवरी से खुल गए हैं। कोरोनाकाल के लंबे समय से बंद रहे कक्षा 6 से 8 तक के सभी स्कूल इस साल 2021 में पहली बार खुले हैं। एक मार्च से कक्षा 1 से लेकर पांचवी तक के सभी प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। बीते कुछ महीनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। इसीलिए यूपी की योगी सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। प्रदेश के हर जिले में कक्षा 6 से 8 तक के सभी स्कूल खुले और बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचे। स्कूल प्रशासन भी कोरोना महामारी को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से

पालन करने में लगा हुआ है। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को अब स्कूलों में साफ-सफाई के प्रबंध भी दिए जाएंगे। इसके लिए परिषदीय विद्यालयों के छात्र और छात्राओं द्वारा रोज स्कूल में 15 से 20 मिनट साफ-सफाई की गतिविधियां संचालित की जाएंगी, ताकि यह बच्चों के व्यवहार में आ जाए। इस कार्यक्रम में शिक्षक भी योगदान करेंगे। इस प्रक्रिया को स्कूल की समय सारिणी में शामिल किया जाएगा। ताकि उनमें अपने स्कूल के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का दायित्व बोध भी जागे। मेरा विद्यालय—स्वच्छ विद्यालय की थीम को लागू करने के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने

सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि स्कूलों में साफ-सफाई के प्रबंधों के लिए पर्याप्त संख्या में झाड़ू, डस्टबिन, कपड़ा व अन्य सफाई सामग्री मौजूद रहे। इसके लिए स्कूल कोप दी जानी वाली कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल परिसर में कब, कहाँ और कैसे सफाई कार्य किया जाना है, इन तथ्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा। स्कूलों के शिक्षक न सिर्फ विद्यार्थियों को साफ-सफाई का अभ्यास करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए कि सभी क्लास में पहले दिन छात्रों

की कुल क्षमता 50 फीसदी रहेगी। बाकी 50 फीसदी बच्चे दूसरे दिन उपलब्ध रहेंगे। यानी कि किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी क्लास में कुल क्षमता से 50 फीसदी से अधिक छात्र उपस्थित नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों को अलग-अलग दिन स्कूल जाना होगा। कक्षा 1 और 5 के छात्र सोमवार और गुरुवार को स्कूल जाएंगे तो वहीं, कक्षा 2 और 4 के छात्र मंगलवार को स्कूल जाएंगे। तीसरी कक्षा के छात्र बुधवार व शनिवार को जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 6 के छात्र सोमवार व गुरुवार, कक्षा 7 के छात्र मंगलवार व शुक्रवार, वहीं, कक्षा 8 के छात्र बुधवार व शनिवार को स्कूल जाएंगे।



कांग्रेस हर हाल में उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन को हासिल करने की कोशिश में लगी है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी भी काफी सक्रिय हैं। वह अगले कुछ दिनों में पश्चिमी यूपी में चार किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या और कम करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाने के लिए निर्देश

लखनऊ, (यूनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव व उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या तेजी से कम हो रही है। इसे और कम करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रति अभी भी पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनर्लोक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा टेस्टिंग का कार्य पूरी सक्रियता से जारी रखा जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि रेड्डी तथा खोमचे वालों की कोरोना टेस्टिंग के लिए



अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किए जाने के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि सभी चिकित्सालयों में सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु ढंग से संचालित की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को उपचार कराने में कोई असुविधा न हो। समस्त चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल कॉलेजों तथा जिला चिकित्सालयों में सर्जरी सहित अन्य उपचार व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आर०के० तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अविनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी० अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम०एस०एम०ई० एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से होंगी शुरू

अमित रेखा सुनील पांडेय ब्यूरो महाराजगंज। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया गया। मई में दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 10 मार्च को मैट्रिक की और 12 मई को इंटर की परीक्षाएं सामंजस्य हो जाएंगी। परीक्षाएं एक महीने से भी कम समय में आयोजित होकर समाप्त हो जाएंगी। हाई स्कूल क परीक्षाएं जहां 12 दिनों में समाप्त हो रही हैं, वहीं इंटर की परीक्षाएं 15 दिनों में संपन्न हो रही हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में 56 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें 29 लाख हाई स्कूल और 26 लाख इंटर की परीक्षा में बैठेंगे।

उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की बेहतरी के लिए हुआ अनुष्ठान

लखनऊ, (यूनएस)। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार 7 फरवरी को ग्लेशियर फटने से अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में हिमस्खलन और बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी। उसके कारण जानमाल की हानि हुई थी। ऐसे में भीषण प्राकृतिक आपदा में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मुक्ति और पीड़ितों की बेहतरी के लिए बुधवार को निराला नगर के प्रतिष्ठित शिव मंदिर में मास की शिवरात्रि पर 51 मंगल दीपक प्रज्वलित किये गए। सनातन रक्षादल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल की अगुआई में यह अनुष्ठान हुआ। इस अवसर पर बाबा भोलानाथ का दुष्, जल आदि पंच द्रव्यों से अभिषेक किया गया। धूप, बेल, धतूरा, पुष्प, आदि अर्पित करने के बाद आचार्य के मार्गदर्शन में भोलानाथ से प्रार्थना की गई कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगे ताकि भारत, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बाद दोबारा विकास की रफ्तार हासिल कर सके। अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सनातन रक्षा दल की ओर से इस क्रम में जनजागृति का व्यापक अभियान भी शुरु किया जा रहा है। इसमें लोगों को शाकाहार के लिए प्रेरित किया जाएगा वहीं सनातन धर्म के दैनिक सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

आईएएस अफसरों, सीएम ओएसडी की सहायता से मैनापावर सफाई में भ्रष्टाचार

लखनऊ, (यूनएस)। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने अपनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्रा०लि० द्वारा यूपी के आईएएस अफसरों, नेताओं आदि के संरक्षण में मैनापावर सफाई में भारी भ्रष्टाचार किये जाने की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में नूतन ने कहा कि उन्हें दी गयी जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2017 में इस कंपनी का करार खत्म होने के बाद भी हीरालाल, तत्कालीन एमडी, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा अर्द्ध ढंग से इस कंपनी को मैनापावर सफाई हेतु प्राधिकृत किया गया। बाद में शोर मचने पर हीरालाल ने मार्च 2018 में इस कंपनी को उनके फर्जी हस्ताक्षर बना कर पत्र लिखने की बात कही। हीरालाल ने अपनी परिधि कंपनी को बार-बार अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वाणिज्य कर, जीएसटी, सर्विस टैक्स, ईपीएफ, ईएसआई, आयकर आदि के भुगतान की स्थिति स्पष्ट नहीं करने तथा ईपीएफ, ईएसआई, सर्विस टैक्स आदि में अनियमितता करने के आरोप लगाये। उन्होंने इस कंपनी के कुकृत्यों के कारण हाई कोर्ट में तमाम जनहित याचिकाएं तथा अन्य याचिका दायर होने तथा इससे निगम की छवि धूमिल होने के गंभीर आरोप लगाये। इन तथ्यों के आधार पर हीरालाल ने 18 जुलाई 2018 को इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, यद्यपि उन्होंने अपने फर्जी हस्ताक्षर से पत्र निर्गत करने के संबंध में एफआईआर नहीं कराया। कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इसे लगातार स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, मेडिकल कॉलेज सहित सरकार के विभिन्न विभागों में लगातार अर्द्ध ढंग से मैनापावर सफाई का काम मिल रहा है। शिकायत में इस कंपनी में एक पूर्व मुख्य सचिव का पैसा लगा होने तथा तमाम आईएएस अफसरों द्वारा इसे अनुचित सहयोग देने के आरोप हैं। इस कंपनी के मालिक अज्ञात गुप्त के मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त एक ओएसडी से अवांछनीय नजदीकी होने की बात भी कही गयी है। नूतन ने इन तथ्यों की उच्चस्तरीय जांच कराते हुए कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

नौशाद संगीत डेवलपमेंट सोसायटी करेगी सम्मान

लखनऊ, (यूनएस)। नौशाद संगीत डेवलपमेंट सोसायटी की ओर से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आत्माराम सावंत के लिखे मूल मराठी नाटक 'खुदा खेर करे' का श्रीधर जोशी द्वारा किए हिन्दी रूपांतरण का मंचन प्रसिद्ध रचनाकार हसन काजमी के निर्देशन में किया जा रहा है। सोसायटी के अध्यक्ष अतहर नबी ने बताया कि संगीत नाटक अकादमी गोमतीनगर स्थित वाल्मीकि रंगशाला में शुक्रवार 19 फरवरी की शाम होने वाले इस मंचन से पहले मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डा. अनीस अंसारी और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी पूर्व एमएलसी सिराज मेंहदी व डा.विक्रम सिंह संस्कृति व रंगक्षेत्र में कार्यरत विजय वास्तव, डा.अनिल रस्तोगी, राजा अवस्थी जैसी कई मूर्धन्य हस्तियों को उनके योगदान के लिए नौशाद सम्मान से अलंकृत करेंगे। इस अवसर पर प्रस्तुत होने वाले लेखक श्रीधर जोशी दूरदर्शन और लखनऊ रंगमंच से जुड़े रहे और 'चेल्काश' जैसी प्रस्तुतियों दे चुके हैं। उनके द्वारा रूपांतरित इस जबरदस्त हास्य नाटक को 30 दिन की गहन प्रशिक्षण नाटक कार्यशाला में तैयार किया जा रहा है। कार्यशाला में रंगकर्म के विभिन्न पक्षों पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। प्रस्तुति तैयार करने में मंच व मंच पार्श्व के पक्षों में लगभग 20 कलाकारों की टीम लगी हुई है।

कल्चे जवाद ने ईरान की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर बधाई दी

लखनऊ, (यूनएस)। ईरान की इस्लामी क्रांति की कामयाबी के 42 साल पूरे होने पर, मजलिसे ओलमाए हिंद के महासचिव इमामे जुमा मौलाना कल्चे जवाद नकवी ने सभी मुसलमानों और खास कर मिल्लते ईरान को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से इमाम खुमैनी रह० ने जुल्म, और अन्याय के खिलाफ आंदोलन शुरु किया और सफलता हासिल की वह आसान नहीं था। हजारों लोगों ने इस्लामी क्रांति की सफलता के लिए अपना बलिदान दिया। जाहिर है कोई भी क्रांति बलिदान के बिना सफल नहीं हो सकती। ईरानी अवाम ने हमेशा क्रांति और प्रतिरोध की मिसाल पेश की है और उत्पीड़न एवं अन्याय के खिलाफ उठे रहे हैं।

भारत एवं नेपाल के बीच मैत्री फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित

से बढ़त दिलाने में अहम कामयाबी प्राप्त की गई। समाचार लिखे जाने तक दोनों टीमों परस्पर एक दूसरे पर गोल करने के लिए संघर्षरत देखी गई। इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय बालीवाल खिलाड़ी विशाल कुमार पुत्र सुरेश पासवान विशेष आकर्षण के केंद्र रहें। आज के मैच के मुख्य अतिथि मनोज कुमार राय समाजसेवी एवं ग्राम प्रधान जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डा०उदय नारायण गुप्त ब्लाक प्रमुख सेवरही एवं अभिषेक मिश्र मैनेजिंग डायरेक्टर अभिप्रियम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड रहें। आज के मैच में मुख्य निर्णायक मोहित सिंह, सहनिर्णायक रहमतुल्लाह तथा मैच के रेफरी की भूमिका प्रभात मिश्र द्वारा बखूबी निभाया गया। वहीं आयोजक मंडल के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा उपस्थित दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान भीम प्रसाद गुप्ता, श्रीप्रकाश गुप्ता, पारसनाथ पाण्डेय, अल्केन्द्र पाण्डेय, सुरेश पासवान, राकेश यादव पूर्व अध्यक्ष किसान पी०जी०कॉलेज, त्यागी राधेश्याम यादव आदि प्रमुख रूप से खेल का लुत्फ उठाते नजर आए।

उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष मनोनीत हुए निहाल अग्रहरि नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने दी बधाई

अमिट रेखा ब्यूरो सुनील पांडेय अखिलेश शर्मा महाराजगंज। लंबे समय से मंडल अध्यक्ष के पद पर पिछले दो वर्षों से युवा कार्यकर्ताओं के साथ कच्चा से कंधा मिला कर



भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में अपने पद का निर्वहन कर रहे निहाल अग्रहरि सको उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि युवा मंच के नगर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। उनके मनोनयन पर नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश जायसवाल व युवा व्यापारियों ने खुशी जाहिर की है। उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि युवा मंच आनंद भारतीय जनता पार्टी

मण्डल प्रतिनिधि युवा मंच नगर उपाध्यक्ष रवि मंडेशिया, विकास चौरसिया, विशाल अग्रहरि, दीपक साहनी, महामंत्री आकाश तिवारी, नगर मंत्री किशन चौरसिया। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश जायसवाल, सभासद महेश लोहिया शुभकमनाएं देते हुए कहा की ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा के साथ जिस प्रकार से पहले लोगों की सेवा की सेवा करते थे। आगे भी उसी प्रकार से नगर के युवा व्यापारियों के साथ हर उरुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए खड़ा रहेंगे ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ। इस स्वागत कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे! भाजपा के शिवम जायसवाल, नवीन सोनकर, सोनू, मंजीत, रवि, सोरभ, गोल्, हिमांशु, सन्नी, पंकज, राजकुमार, अयन, आयुष, विशाल आदि लोग मौजूद रहे।

प्रधान द्वारा कराए गए मानकविहीन कार्यों की अधिकारियों द्वारा जाँच

अमिट रेखा—मेहरौना लार— देवरिया। गत कार्यकाल में ग्राम प्रधान अजना के द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों की जाँच आज दुबारा जिले के अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके पूर्व अनुज सिंह एवं अन्य ग्रामीणों की शिकायत पर जिले से रुद्रपुर तहसिल के कुछ अधिकारियों की टीम जाँच करने आई थी लेकिन शिकायतकर्ताओं द्वारा संतोषजनक जाँच नहीं करने पर पुनः शिकायत दर्ज किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में आज जिला विकास अधिकारी ने एक टीम जाँच करने के लिए भेजा जिसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गयी। ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए आरोप में शौचालय निर्माण में लगभग 80: शौचालय अपूर्ण पाए गये। वहीं पुर्व विधायक निधी से निर्मित इंटरलाकिंग रोड का भी पुनः निर्माण दिखाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार निवर्तमान प्रधान डेजी देवी ने अपने दरवाजे पर ही पुर्व में बने नीजि शौचालय को ही सार्वजनिक शौचालय के रूप में दिखा दिया है। वहीं वासुदेव बावनपाली गांव के प्राइमरी स्कूल में भी पुर्व में बने शौचालय को नवीन निर्मित शौचालय के रूप में दिखाया गया है। मनरेगा कार्य द्वारा अनेक ऐसे सड़कों का निर्माण दिखाया गया है जो वास्तविक धरातल पर उपलब्ध नहीं है। वहीं 40 स्ट्रीट लाइट में से मौके पर मात्र 10 लाईट ही उपलब्ध मिले। संबंधित ग्राम सचिव लल्लन पांडे एवं अन्य अधिकारी पूछने पर मीडियाकर्मीयों को जबाब देने से करताते रहे।



सपा अखिलेश यादव के बयान पर घोर निंदा किया

अमिट रेखा अयोध्या। महंत राजू दास ने अखिलेश यादव के बयान पर जो कह रहे हैं अखिलेश यादव की राम जन्म भूमि चंदा जीविका राम जन्म भूमि आस्था जोड़ा है हर हिंदू जनमानस का अखिलेश यादव तो कभी भी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने और उनके पिता भी कभी यह नहीं चाहे राम मंदिर बने राम भक्तों पर गोली चलवाई पहले भी बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे आज भी बाबरी मस्जिद के पक्ष में हैं अखिलेश यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण बयान है हिंदू जनमानस राम जन्मभूमि से जो भी जुड़ा है वह भगवान की आस्थ का प्रतीक है ऐसी बात कहना अखिलेश यादव के लिए ठीक नहीं है और यह बात कहना हिंदू जनमानस के लिए आहत है ये कहना ठीक नहीं और यह बयान वह कह रहे हैं जो कि 500 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण करने के लिए फैसला आया और आज यह कह रहे हैं कि श्री राम जन्म भूमि चंदा जीविका है निंदनीय है इस पर घोर निंदा हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचाना है।



खेल से खिलाड़ियों को होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास

– हार से मिलती है अत्यधिक परिश्रम करने की सीख
– खेल में हार—जीत लगी रहती है हारने वाले को नहीं होना चाहिए निराश



अमिट रेखा—प्रदीप कुमार श्रीवास्तव गोडरीय— कुशीनगर। जनपद के तमकुही राज तहसील अंतर्गत विकासखंड दुदही में श्री सुदामा जी स्मार्ट इंटरमीडिएट कॉलेज शुक्लही निकट चिरकुटा के प्रांगण में खेती गई दुकी क्रिकेट प्रतियोगिता। खेल से खिलाड़ियों को होता है मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा खेल में हार—जीत लगी रहती है और हारने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होनी चाहिए। उसे और अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए जिससे हर खेल में जीत हासिल

कर सके। उक्त बातें श्री सुदामा जी स्मार्ट इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक वीरेंद्र यादव ने कही। इस प्रतियोगिता में एस. एस. जी स्मार्ट इंटरमीडिएट कॉलेज व एस. एम. डी शिक्षण संस्थान के छात्रों के बीच यह क्रिकेट प्रतियोगिता खेला गया। जिसमें इस फाइनल मुकाबले में एस. एस. जी स्मार्ट इंटरमीडिएट कॉलेज के खिलाड़ियों ने अपनी जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में यू पी जी एन कॉलेज पडरौना के छात्र नेता मनोज यादव व समाजसेवी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (संवाददाता अमिट रेखा) ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त पर व फीता काटकर के मैच की शुभारंभ किया। इस अवसर पर एस एस जी स्मार्ट इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रा. आनाचार्य दुर्गेश कुमार यादव एस एम डी शिक्षण संस्थान दुदही के प्रधानाचार्य अमरनाथ सिंह तथा इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष इंजीनियर बबलू यादव कोषाध्यक्ष इंजीनियर प्रेम कुमार यादव तथा क्षेत्र के गणमान्य गण व विद्यालय के शिक्षक गण इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

भटनी चीनी मिल चालू करने के लिए दिया एक दिवसीय धरना



अमिट रेखा—विनय कुमार मिश्र नकहनी भटनी देवरिया। दिनांक 10-02-2021 को भटनी नगर के नकहनी चौराहे पर भटनी का चीनी मिल चालू कराने के लिए एक दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना समाजसेवी चंद्रमान पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक दयानन्द कुशवाहा रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से चीनी मिल चालू कराने के लिए माननीय राज्यपाल महोदया को एक पत्र लिखकर अवगत भी कराया गया। अवगत करा दे की भटनी का

चीनी मिल बंद हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन इसे पुनः चालू कराने का कार्य अभी तक किसी के द्वारा सम्भव नहीं हो पाया है। अधिकांशतः कुछ लोगों द्वारा इसे चालू कराने के लिए धरना दिया जाता रहा है। आज के इस धरना प्रदर्शन की कुछ मांगें ये थी कि पहला तो चीनी मिल को चालू करने के साथ ही उसमें कार्यरत मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जाए, दूसरा यह कि किसान बिल सरकार वापस ले और बढती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। आज के इस धरना प्रदर्शन में कृष्ण कांत शुक्ल, विनोद यादव, सत्य नारायण शर्मा, संजय कुमार सिंह, नसीम अहमद, सोनू वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे।

श्रीराममंदिर निर्माण समर्पण निधि में हर वर्ग के लोगों ने दिया दान, नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल

अमिट रेखा सुनील पांडेय ब्यूरो महाराजगंज। महाराजगंज जिले के आनंदनगर कस्बे में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि के लिए हर वर्ग के लोग आगे आने लगे हैं। कुववारों के आनंद नगर में मंदिर निर्माण के लिए किनारों के मुखिया मुन्नी, शबनम ने हजार रुपये की राशि नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश जायसवाल को सौंपा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आवाह पर मंदिर निर्माण के लिए भाजपा सहित अन्य संगठनों द्वारा घर-घर संकट किया जा रहा है। इसी के तहत कुववार की सुवह को नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल किन्नर समाज के मुखिया शबनम मुन्नी के घर पहुंचे। किन्नर समाज की मुखिया मुन्नी ने बताया कि मंदिर निर्माण की घोषणा के समय ही उन्होंने निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया था। इसी के बाद उन्होंने अपने समाज के लोगों से मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात कही थी। किन्नर समाज की मुखिया मुन्नी के मुताबिक उनके सभी सदस्यों की ओर से मंदिर निर्माण में यह राशि भेंट की है। उनका कहना था की जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण पूरा हो जाने के बाद वे स्वयं अपने समाज के सदस्यों के साथ भगवान प्रभु श्रीरामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या जाएंगे इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश जायसवाल के साथ आशीष जायसवाल कमलेश शर्मा और भी लोग उपस्थित रहे।

करुणा योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया

अमिट रेखा ब्यूरो महाराजगंज। महाराजगंज नौतनवां भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य भाजपा नेता जितेंद्र जयसवाल ने बुधवार को कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें 21 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके विभिन्न समाजसेवियों द्वारा कोरोना योद्धाओं को माल्यार्पण व साफा पहनाकर कोरोना योद्धा सम्मान प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। बार एशोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र शुक्ल ने अपने भोजपुरी अंदाज में कहा कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। इन कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित डॉक्टर संदीप सिंह, डॉ एस के त्रिपाठी, डॉ जेपी चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार उमेश तिवारी, डॉ राजीव शर्मा, पत्रकार अरविंद त्रिपाठी, डॉ विश्वजीत राय, पत्रकार हेमंत यादव, पत्रकार श्री चन्द बरनवाल, पत्रकार गुड्डू जयसवाल, पत्रकार मो. गुलाम मुस्तफा, पत्रकार रतन गुप्ता, पत्रकार उमेश मंडेशिया, पत्रकार कृष्णमोहन तिवारी, पत्रकार एडवोकेट नागेंद्र शुक्ल, मनोज राना, जितेंद्र शर्मा, सेराज खान, धर्मेंद्र शाही आदि इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व चेयरमैन सीताराम लोहिया, समाजसेवी उमेश आसवानी, सविता गुरुंग, ज्योति जायसवाल, बासकी नाथ वर्मा, बीडी पांडेय आदि उपस्थित रहे।

आशा सौंगिनी का प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज में संपन्न हुआ: अंजनी कुमार सिंह

अमिट रेखा सुनील पांडेय ब्यूरो महाराजगंज। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एलीकेशन पर आशा सौंगिनी का प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज में संपन्न हुआ इस पर्यवेक्षण के माध्यम से संगीनी आशा के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी पर्यवेक्षण करेगी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने काम केयर टैप के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने उस में आने वाले समस्याओं पर चर्चा की बी सी पी एम विनोद कुमार ने सभी संगीनी के मोबाइल में उनके समस्त आशाओं का पंजीकरण कराने के साथ ही आने वाली समस्याओं पर चर्चा की इस अवसर पर जनपद से आये डी सी पी एम संदीप पाठक ने संगीनी के त्वच माध्यम से कार्य करने को कार्य प्रणाली में सुधार के लिए जरूरी बताया फील्ड में जाते समय मोबाइल को चार्ज रखने का निर्देश दिया इस अवसर पर विजय लक्ष्मी अंजू देवी उषा द्विवेदी त्रिवेणी देवी अनीता शशि प्रमा श्रीवास्तव सुषा देवी रीता यादव संगीनी मौजूद रही।

ठण्ड के मौसम में गरीबों के लिए सोचने की है जरूरत—अध्यक्ष पद भावी प्रत्याशी विशाल यादव

अमिट रेखा शक्ति ओम सिंह खजनी गोरखपुर। गोरखपुर— ठंड के इस मौसम में गरीबों और असहायों के विषय में सोचना ही बहुत है और यदि हम समाज में एक भी कदम उनकी मदद के लिए बढ़ा सकें तो इससे बड़ा पुनीत कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। ठंड के इस बढ़ते हुए प्रकोप में जिस प्रकार से नए साल के अवसर पर 501 कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। यह बेहद ही सराहनीय और पुनीत कार्य है ऐसे कार्य समय समय पर होते रहने चाहिए। जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। उक्त बातें एच आर पी जी कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर में नव वर्ष के अवसर पर कंबल वितरण के कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि फिल्म अभिनेता गरीबों में कंबल वितरण करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस पुनीत कार्य का मैं भी हिस्सा बन पा रहा हूँ। खजनी विकासखंड के महादेवा बाजार पर पर कंबल वितरण का कार्यक्रम खासा था। जिसमें सैकड़ों की संख्या में गरीब लोगों को कंबल वितरण किया गया तथा लोगों को यह भी बताया गया कि ऐसे पुनीत कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए तथा गरीबों के विषय में सोचना की जरूरत है। इस समारोह में मुख्य रूप से लाल साहब सिंह, इंद्रदेव यादव, रणजीत सिंह यादव, कोशल सिंह यादव विकास अन्य भी गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

आग लगाने से गृहस्थी हुई खाक, तन पर कपड़े के अलावा सबकुछ स्वाहा

‘अमिट रेखा ब्यूरो मोहम्मद हसन’ अयोध्या। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बसवार कला निवासी जुग्गीलाल पुत्र छोटे लाल का आवासीय मकान आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को अज्ञात कारणों से आग लगी जिसमें भुक्तभोगी की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। भुक्तभोगी जुग्गीलाल ने बताया कि आग की चपेट में आने से घर की चारपाई, बिस्तर, अनाज व अन्य गृहस्थी के सामान, आभूषण तथा बर्तन सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तन पर पहने कपड़े के अलावा कुछ नहीं बचा। गुहार पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तबतक आग के आगोश में सबकुछ स्वाहा हो चुका था। सूचना पर पहुंचे लेखपाल देवेन्द्र कुमार ने मौका मुआयना किया। लेखपाल देवेन्द्र ने बताया कि आग की चपेट में आने से हुए नुकसान की रिपोर्ट तहसील कार्यालय को भेजी जा रही है। जो सरकारी अधिकारियों सहित आग लगने के पीछे परिवार को उपलब्ध कराया जायेगी। हालांकि पीड़ित परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा है। यहाँ तक कि परिवार के सामने भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक मुद्रक तथा सम्पादक अमरनाथ पाण्डेय द्वारा अमिट प्रिन्स कालेज रोड फाजिलनगर से मुद्रित ग्राम बरदहा पाण्डेय फाजिलनगर कुशीनगर से प्रकाशित।

सम्पादक अमरनाथ पाण्डेय मो. - 9532989009

उप सम्पादक - के.के. राय सह. सम्पादक- चन्द्रशेखर यादव प्रदेश प्रभारी- राजू प्रसाद श्रीवास्तव मो- 9792610770

विकासन व्यवस्थापक- नसरुल्लाह अंसारी प्रबंधक- निखिल कुशवाहा ईमेल: amitkhn@gmail.com